



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2003/माघ 25, 1924

No. 153]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2003/MAGHA 25, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

का.आ. 178(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) 1 मार्च, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 266 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2002 द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में (पुणे से सतारा खंड) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर 725 किमी से 797 किमी तक (चार लेन) बनाने के लोकप्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है ;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में सातारा जिले में 725 कि.मी. से 797 कि.मी. तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के पुणे सातारा खण्ड को चार लेन का बनाने के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या/मकान संख्या	भूमि का क्षेत्रफल चौ. मी.	भूमि की किस्म	भूमि के स्वामी का नाम तथा हितबद्ध का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खण्डाला	(1) धोंगरवाडी	269 भाग	2700	निजी	ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव, शशिकांत महादेव गोलांडे पुरंदरदास वासुदेव शिंगाटे, सत्यवान श्रीकृष्ण शिंगाटे, बद्रीनारायण माधवराज शिंगाटे, गोविंद नरसिंग शिंगाटे अन्य अधिकार गोपालकृष्ण माधवराज शिंगाटे कुंदा नंदकुमार देशपाण्डे व्यंकटेश राघवेंद्र शिंगाटे अलकनंदा श्रीकृष्ण शिंगाटे विष्णु माधवराज शिंगाटे दामोदर माधवराज शिंगाटे
			276अ भाग	1300	निजी	लक्ष्मण चिमा जानकर, तुकाराम चिमा जानकर, बापुराव चिमा जानकर, नानबा चिमा जानकर, छबुताई गेनबा जानकर अन्य अधिकार शेवाबाई मल्हारी ठोंबरे, गीताबाई कोंडिबा देवकाते, सीताबाई रघुनाथ कबरे, धोंडाबाई चिमाजी जानकर, संदिप गेनबा जानकर, चंद्रकांत गेनबा जानकर, शोभा नामदेव पिसाल, सुजाता गेनबा जानकर, भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिखल
			277 भाग	300	निजी	शिवाजी जानबा मोटे, भिवा जानबा मोटे
			278 भाग	300	निजी	संपत आबा मोटे, सौ. बिल्कीशा इकबाल शेख
			279 भाग	400	निजी	चंदर नाबा मोटे,

						जाईबाई नाबा मोटे, आबा कृष्णा मोटे, आनंदा जनबा मोटे, अन्य अधिकार धनगरवाडी विकास सोसायटी
			280 भाग	600	निजी	वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री जोशी, अन्य अधिकार धनगरवाडी विकास सोसायटी
			281 अ भाग	4100	निजी	डाहयाभाई मनसुख जोशी, हरीप्रसाद डाहयाभाई जोशी, विलास ज्ञानोबा तोडकरी, शैलेजा चंद्रशेखर मांडके चंद्रशेखर व शंकर विनायक मांडके, (जोशी) सौ. स्मिता सुरेश ताथवडे, सुरेश शिवराम ताथवडे, जयवंत बाबुराव भोसले, रख्माजी आबाजी शेडगे, सौ. प्रभावती बलासो माने, शशिकांत मदनराव पिसाल
			281 ब भाग	800	निजी	सौ. सिमता सुरेश ताथवडे, सुरेश शिवराम ताथवडे, जयवंत बाबुराव भोसले रख्माजी आबाजी शेडगे सौ. प्रभावती बालसो माने, शिशिकांत मदनराव पिसाल
			403/अ भाग	2700	निजी	तिजाबा रामभाऊ मोटे, महादु रामभाऊ मोटे, गंगाराम रामभाऊ मोटे, नारायण रामभाऊ मोटे, राजामराम सोमा मोटे बालू सोमा मोटे, दादा सोमा मोटे, यशवंत सोमा मोटे, बालू कोंडिबा देवकाते, घोंडीबा कोंडीबा देवकाते, सिंधू कोडीबा देवकाते, गीताबाई कोंडीबा देवकाते, अन्य अधिकार सुदराबाई येदु पिसाल, सालाबाई आप्पा ठोंवरे, गोजाबाई रामा मोटे शिरवल विकास सोसायटी,

		403 बी भाग	1100	निजी	रविंद्र श्रीवल्लभ बंग, सीमा रविंद्र बंग
		432 भाग	6900	निजी	मो. एस.टी.एल. व्होल्डींग प्रा. लिमिटेड, दादासाहेब धोंडिबा राउत,
		469 भाग	2500	निजी	यशवंत रामचंद्र नवसे
		470 भाग	1700	निजी	गजानन मानसिंग घाडगे, अन्य अधिकार शिरवल विकास सोसा,
		471 भाग	1500	निजी	मै. शिरवल ऑरनिकल पा. लिमिटेड, सौ. लक्ष्मीछाया प्रकाश काले, श्रीमती कुसम दत्तात्रय कुलकर्णी, रामीडा केमिकल्स लिमिटेड, तफे बी. एस. खानोलकर प्रकाश हरिबा काटे अन्य अधिकार प्राणी प्रधान इंडस्ट्रीज
		473 भाग	2600	निजी	गजानन बाबुराव चव्हाण, बालू लक्ष्मण कदम, कुसुम दत्तात्रय कुलकर्णी, संतोष दत्तात्रय कूलकर्णी, जिजाबा सिताराम पवार, अन्य अधिकार मुरलीधर दत्तात्रय कलकर्णी, विनायक दत्तात्रय कलकर्णी प्रमोद दत्तात्रय कलकर्णी, सतीश दत्तात्रय कलकर्णी, विजया भास्कर पाठक, सरोजीनी भास्कर पाठक, योगीनी मधुकर खांडेकर, स्नेहा मधुकर राजापाध्ये माधवी रमेश आडकर, अनुराधा अविनाश चिंचारे, श्रद्धा अरुण पाठक, माधुरी प्रदीप मोकाशी
	(2) परगाँव	35 भाग	3900	निजी	शिवाजी बालू ढमाल, रामचंद्र बालू ढमाल, प्रकाश बबन ढमाल, विलास बबन ढमाल, ह्यानसिंग भिकोबा भोसले, रामदास संपतराव गालवे,

						तानाजी विठ्ठल पवार, सुरेश दाजिबा गालवे, अन्य अधिकार शिरीष अँत्माराम भगत, रामचंद्र बालू डमाल,
			81 भाग	1000	निजी	दाजीराम बालूराम कदम, शंकर बाबूराव कदम, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव,
			नाला	1000	सरकारी	महाराष्ट्र शासन
			849 भाग	400	निजी	वामनराव कृष्णा गुलुमकर दत्तात्रय कृष्णा गुलुमकर, साहेबराव कृष्णा गुलुमकर, नारायण कृष्णा गुलुमकर, उत्तम कृष्णा गुलुमकर, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			845 भाग	100	निजी	पार्वती सर्जराव गुलुमकर, ठकुबाई सर्जेराव गुलुमकर, रस्साबाई तुकाराम गुलुमकर, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव सुभद्रा मानसिंग पाटणे, शाकन शिवाजी गायकवाड़, कलाबाई भगवान गायकवाड़, नकुसाबाई शामराव मांलरे,
			844 भाग	100	निजी	नानासो बबन यादव, शिवाजी बबन यादव, चंद्रकांत बबन यादव, रविंद्र बबन यादव, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			841 भाग	100	निजी	नानासो बबन यादव, शिवाजी बबन यादव, चंद्रकांत बबन यादव, रविंद्र बबन यादव, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी

						पारगाव
			838 भाग	100	निजी	पार्वती सर्जराव , ठकुबाई व रस्साबाई सजैराव गुलुमकर, अन्य अधिकार सुभद्रा मानसिंग पाटणे, कलाबाई भगवान गायकवाड, सालन शिवाजी गायकवाड नकुसाबाई शामराव मांलरे,
			835 भाग	100	निजी	नानासो बबन यादव, शिवाजी बबन यादव, चंद्रकांत बबन यादव, रविंद्र बबन यादव,
			834 भाग	100	निजी	बाला गेनबा गुलुमकर, गणपत गेनबा गुलुमकर, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			836 भाग	200	निजी	बालू हरी ढमाल, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			19 भाग	300	निजी	लोकल बोर्ड धर्मशाला गुलाब आबुमियाँ पटेल,
			21 भाग	100	सरकारी	महाराष्ट्र शासन
			22 भाग	100	निजी	सिंधु दगडोबा गायकवाड बालासो भिकोबा गायकवाड दशरथ भिकोबा गायकवाड संजय वसंत गायकवाड दीपक वसंत गायकवाड, अन्य अधिकार कमलाकर दगडोबा गायकवाड चतुरा शंकर शिंदे, सुमन विलास शिंदे, सकुबाई भिकोबा गायकवाड, शोभा बापूराव मोरे, कुसुम वंसतराव गायकवाड,
			24 भाग	200	निजी	विलास शंकर पोल, सुभाष शंकर पोल, बबन शंकर पोल,
			25 भाग	100	निजी	कमलाकर दगडोबा गायकवाड, सुधाकर दगडोबा गायकवाड, मोहन दगडोबा गायकवाड,

						बालासो भिकोबा गायकवाड़, दशरथ भिकोबा गायकवाड़, संजय वसंतराव गायकवाड़ दीपक वसंतराव गायकवाड़, अन्य अधिकार शोभा बापूराव मोरे, कुसुम वसंतराव गायकवाड़
			26 भाग	100	निजी	संतोष व्यंकटराव पवार, अन्य अधिकार छायादेवी अशोकराव जाधव, मायादेवी बालासोहब यादव, दया व्यंकटराव पवार जया व्यंकटराव पवार
			29 भाग	300	निजी	चंद्रक्रांत मारुती राऊत, छबुबाई मारुती राऊत, कमल दीपक उबाले, भुपेश दत्तात्रय राऊत, दिनेश दीपक उबाले, चांगुजा विलास भोज, संतोष निवृत्ती घोरपडे
			30 भाग	100	निजी	धर्माजी कृष्णाजी गाढवे, मगबुल बाबुमिया पठाण, मुस्ताक बाबालाल मुल्ला, सौ रहिफा इलाई मुल्ला, हीराबाई रामचंद्र ढमाल, रत्नप्रभा सर्जेराब ढमाल, वनिता हणमंत माने, कौतिक दिनकर ढमाल, शंकर कोंडीबा ढमाल, पोपटलाल सदाशिव पवार, शहजादा आब्बास पटेल, विनय गुलाबराय ढमाल, रशिद मगबुल पठाण, संदीप मानसिंग पवार, अशोक मानसिंग पवार, सो सुनीता रविंद्र चौधरी, जाबली सहाकरी बैंक, मुम्बई शाखा पाचगणी ताराबाई यशवंत गोले, निर्मला तुकाराम गोले, अन्य अधिकार दि कराड जैन्ता बैंक, कराड शाखा वाई

						ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव इंदूबाई रामचंद्र खोपडे, राजश्री विजय ढमाल, जावली सह बैक मुंबई शाखा पाचगणी.
			31 भाग	1100	सरकारी	महाराष्ट्र शासन
			32 भाग	1200	निजी	हणमुंत आनंदराव यादव, पुष्पा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, साहेबराव मारुती ढमाल, महेश हरिशचंद्र शिंदे अन्य अधिकार बायडाबाई आनंदराव यादव, शंकर धोंडी पोल, ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव नंदा शिवाजी जगताप
			33	500	निजी	साहेबराव रामभाऊ यादव व्यंकट रामभाऊ यादव कासम आबुमियो पठाण, गुलाब आबुमियो पठाण, हनुमंत आनंदराव यादव, उत्तम, संजय शामराव सर्जेराव यादव, अलका साहेबराव ढमाल, अन्य अधिकार बायडाबाई आनंदराव यादव, रंजना सहदेव, ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			4 भाग	1400	सरकारी	महाराष्ट्र शासन
			34 भाग	1000	निजी	व्यंकट रामभाऊ यादव, वामनराव केशवराव पाटिल, हनुमंत आनंदराव यादव, विलास शंकर पोल, हिम्मत साहेबराव यादव जयर्वेत साहेबराव यादव, सुभाष शंकर पोल, बबन शंकर पोल, मयूर साहेबराव ढमाल, प्रफुल्ल धर्मराज ढमाल, प्रवीण धर्मराज ढमाल, प्रियंका जालंधर पवार,

						छाया सुरेश भिलारे, जालींदर नथूराम पवार, दत्तात्रय नथूराम पवार अन्य अधिकार बायडाबाई आनंदराव यादव, मंदा शिवाजी
			1418 भाग	100	निजी	ज्ञानदेव तुकाराम गुलुंमकर, सुनील तुकाराम गुलुंमकर, दिलीप यादव, शितल, कोमल, सोनल, दिलीप यादव, नंदा अन्य अधिकार विकास सह सोसायटी पारगाव
			1424 भाग	100	निजी	कृष्णा बाला गुलुंमकर, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			1425 भाग	200	निजी	मथुराबाई गोविंद गाढवे, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			1426 भाग	200	निजी	धर्म हनुमंत गुलुंमकर
			1431 भाग	100	निजी	गंगाराम जयाप्पा यादव, अन्य अधिकार कमल दादासो ढमाल, विमल नंदकुमार पवार निर्मला पोपट येवले, शेर्वताबाई जनप्पा यादव, कलाबाई नामदेव जगताप, सोनाबाई श्रीरंग गायकवाड हौसाबाई बबन ढमाल
			1432 भाग	100	निजी	नामदेव दादुराम गुलुंमकर
			1434 भाग	400	निजी	आनंदराव खाशबा यादव, मानसिंग खाशबा यादव, यशवंत खाशबा यादव पोपट खाशावा यादव, अन्य अधिकार, कृष्णा बाई मन्याबा पवार, शांताबाई बालासो पवार, साखराबाई मारुती गाढवे, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव

			1435 भाग	200	निजी	बाबूराव विठ्ठल यादव, नारायण विठ्ठल यादव, चंद्रभागा मधुकर यादव, राजाराम विठ्ठल यादव, अन्य अधिकार, ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			1436 भाग	200	निजी	किसन बाबूराव यादव, पंडित बाबूराव यादव, विठ्ठल बाबूराव यादव अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			1437 भाग	200	निजी	तुकाराम अप्पाजी गायकवाड़, तानाजी तुकाराम गायकवाड़, चंद्रभागा रामचंद्र पवार, शारदा बबन आंबाले बालकृष्ण पोपट लिमन
			1438 भाग	200	निजी	कृष्णा जन्म गुलुमकर,
			1439 भाग	100	निजी	तानाजी तुकाराम गायकवाड़, चंद्रभागा रामचंद्र पवार, शारदा बबन आंबाले बालकृष्ण पोपट लिमन
			1440 भाग	100	निजी	जर्माजी आप्पाजी यादव, अरविंद आप्पाजी यादव, मारुती आप्पाजी यादव, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			1441 भाग	100	निजी	नागू नवलू यादव विलास नवलू यादव,
			1448 भाग	100	निजी	बालू भिकू गुलुमकर (यादव)
			1449 भाग	100	निजी	पार्वती सर्जेराव यादव, सरसाबाई व ठकुबाई बाप सर्जेराव यादव अन्य अधिकार सुभद्रा मानसिंग पाटणे, कलाबाई भगवान गायकबाड
			1452 भाग	100	निजी	सातारा जिला कॉ - ओपरेटिव मार्गेज बैंक लि० कराड अन्य अधिकार सिंद्राम दौलती गुलुमकर
			1453 भाग	100	निजी	सुभेदार तुकाराम यादव,

						श्रावण जयसिंग आवडे, शामराव बबन यादव, रामदास बबन यादव, निवृत्ती बाबूराव यादव, बैंक ऑफ बरोडा शाखा खंडाला अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगांव संगीता बबन यादव छाया बबन यादव जगुबाई बबन यादव
			913 भाग	100	निजी	दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑफ लैण्ड बैंक लि० उप शाखा खंडाला अन्य अधिकार हरीबाई बाबू ढमाल विकास सोसायटी पारगांव
			912 भाग	100	निजी	धर्माजी अप्पाजी यादव अरविंद अप्पाजी यादव, मारुती अप्पाजी यादव, अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगांव
			911 भाग	200	निजी	विठ्ठल हैबती ढमाल लक्ष्मण हैबती ढमाल
			909 भाग	400	निजी	बाबू हरी ढमाल राजेन्द्र बालासो यादव ब्राम्हानंद साहेबराव वाघ अकुंश मानसिंग ढमाल वसंत पांडुरंग पापले नामदेव बाबूराव जाधव सुलोचना गुलाबराव भोसले छाया किसन गढवे मिरा अरविंद भोसले वंदना दत्तात्रय खामकर पार्वती बाबुराव जाधव उषा नामदेव जाधव शैला जितेंद्र भोसले दिनकर सहादू जाधव दादा बाबुराव धायगुडे शिवाजी दिनकर धायगुडे बालू दिनकर कदम सुनील सुभेदार जगताप महेंद्र सुभेदार जगताप स्वाती सतीष देशमुख मौलाना अब्दुल खैर,

						आशा अकुंश गायकवाड़ निलेश वालासो यादव वैशाली गिरिधर भोसले रूपाली बालसो यादव सुनीता बालसो यादव अजय बकाजीराव पाटील महमंद इद्रीस अंसारी
			908 भाग	200	निजी	कालू कृष्णा खोपडे
			906 भाग	200	निजी	बाबू हरी ढमाल
			903 भाग	200	निजी	अशोक रामचंद्र ढमाल अरविंद रामचंद्र ढमाल सुनील रामचंद्र ढमाल अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगांव
			901 भाग	200	निजी	पांडूरंग शंकर ढमाल रामदास शंकर ढमाल अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगांव
			900 भाग	200	निजी	मारुती दिनकर ढमाल दि महाराष्ट्र स्टेट को ओपरेटिव लैण्ड डे. बैंक लि० मुंबई उप शाखा खंडाला अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगांव धर्माजी दिनकर ढमाल
			897 भाग	100	निजी	बबन मारुती ढमाल अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगांव
			896 भाग	100	निजी	महादेव वामन ढमाल सुभाष वामन ढमाल विलास वामन ढमाल जयसिंग वामन ढमाल, अन्य अधिकार विकास ग्रामीण सोसायटी पारगांव
			895 भाग	200	निजी	सर्जेराव शंकर यादव महाराष्ट्र राज्य सह व ग्रामीण विकास बैंक जिला शाखा सतारा अन्य अधिकार अरविंद शंकर यादव
			894 भाग	200	निजी	आनंदराव साहेबराव ढमाल, गणपत साहेबराव ढमाल, प्रहलाद साहेबराव ढमाल,

			892 भाग	200	निजी	मारुती तुकाराम रिठे अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			891 भाग	300	निजी	महादु युद रिठे सुभेदार शंकर गायकवाड बबन शंकर गायकवाड सौंनुबाई शंकर गायकवाड अशोक बाबूराव गायकवाड रामचंद्र बाबूराव गायकवाड अन्य अधिकार सुंदराबाई शंकर चव्हाण गिरिजाबाई बापूराव गायकवाड हिराबाई आण्णा बोबडे
			889 भाग	200	निजी	यदु संभाजी ढमाल उत्तम संभाजी ढमाल शिवाजी संभाजी ढमाल
			887 भाग	200	निजी	नथू जगन्नाथ ढमाल, दत्तु जगन्नाथ ढमाल, अंकुश दादासाहेब ढमाल महाराष्ट्र राज्य सहाकरी व कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लि० मुंबई शाखा सतारा अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव दिलीप जगन्नाथ ढमाल नारायण दादासो ढमाल सखुबाई बालासो ढमाल सुरेखा अंकुश रांगोले सुनीता रामदास चव्हाण पुष्पा अशोक खंडागले भारती बालासो चव्हाण
			884 भाग	100	निजी	रामचंद्र बाला रिठे अहिल्या कृष्णाजी गायकवाड भानुदास आबाजी गायकवाड विश्वास आबाजी गायकवाड आशा सुभेदार जगताप अरुणा महादेव जगताप रुकमीणी आबाजी गायकवाड मनोज कृष्णाजी गायकवाड शीतल कृष्णाजी गायकवाड शशिकांत कृष्णाजी गायकवाड

					कीर्ति कृष्णाजी गायकवाड
		883 भाग	200	निजी	आनंदराव साहेबराव ढमाल गणपत साहेबराव ढमाल प्रहलाद साहेबराव ढमाल
		880 भाग	200	निजी	दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑफ लैण्ड डेवलपमेंट बैंक लि० उप शाखा मुम्बई भरत शिवराम ढमाल अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव मानसिंग शिवराज ढमाल भरत शिवराम ढमाल
		876 भाग	200	निजी	महादेव वामन ढमाल सुभाष वामन ढमाल विलास वामन ढमाल जयसिंग वामन ढमाल
		874 भाग	100	निजी	बबन मारुती ढमाल अशोक रामचंद्र ढमाल सदाशिव श्रीपती ढमाल बाबू हरी ढमाल चिमाजी गेणु रिठे निवृत्ती चिमाजी रिठे भगवान सदाशिव रिठे गेनबा चिमाजी रिठे विठ्ठल हैबती ढमाल लक्ष्मण हैबती ढमाल सचीन शिवाजी गायकवाड रत्ना शिवाजी गायकवाड सुर्वणा शिवाजी गायकवाड यमुना शिवाजी गायकवाड नथू जगन्नाथ ढमाल दन्तू जगन्नाथ ढमाल दिलीप जगन्नाथ ढमाल आनंदराव साहेबराव ढमाल गणपत साहेबराव ढमाल प्रल्हाद साहेबराव ढमाल भरत शिवराम ढमाल मानसिंग साहेबराव ढमाल थदू रभाजी ढमाल शिवाजी रभाजी ढमाल उत्तम रभाजी ढमाल बबन मारुती ढमाल अरविंद रामचंद्र ढमाल,

						सुनील रामचंद्र ढमाल अंकुश दादासो, ढमाल तानाजी मारुती ढमाल अरविद मारुती गायकवाड़ अन्य अधिकार जास्वदीबाई रामभाऊ गोले ताईबाई साहेबराव यादव पारगांव विकास सोसायटी नारायण दादासो ढमाल सखुबाई बालासो ढमाल सुरेखा अंकुश रानगोले पुष्पा अशोक खंडागले सुनीता रामदास चव्हाण भारती बालसो चव्हाण
			870 भाग	200	निजी	नथू जगन्नाथ ढमाल, दत्तू जगन्नाथ ढमाल, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई शाखा सतारा, अंकुश दादासो ढमाल, अन्य अधिकार, दिलीप जगन्नाथ ढमाल, नारायण दादासो ढमाल, सखुबाई बालासो ढमाल, सुरेखा अंकुश ढमाल, पुष्पा अशोक खंडावले, सुनीता रामदास चव्हाण, भारती बालासो चव्हाण.
			869 भाग	300	निजी	रामचंद्र बाला रिटे, आहिल्या कृष्णा गायकवाड़ मे. उपसंचालक पुनर्वसन तथा जिलाधिकारी सतारा, अन्य अधिकार कृष्णा आबाजी गायकवाड़, भानुदास आबाजी गायकवाड़ विश्वास आबाजी गायकवाड़ आशा सुभेदार जगताप अरुणा महादेव जगताप, रुक्मिणी आ गायकवाड़ मनोज की. गायकवाड़ शशिकांत कृष्णा गायकवाड़ कीर्ति के गायकवाड़
			866 भाग	200	निजी	रामचंद्र आनंदराव यादव

					लक्ष्मण आनंदराव यादव सोपान आनंदराव यादव अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगाव
		865 भाग	100	निजी	रंजना हनमंत यादव महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण विकास बैंक सतारा, अन्य अधिकार जयवंत यदू यादव
		863 भाग	200	निजी	महादेव वामन ढमाल सुभाष वामन ढमाल विलास वामन ढमाल जयसिंग वामन ढमाल
		860 भाग	100	निजी	कृष्णा बाला गुलुमकर सर्जेराव दादुराम गुलुमकर रामचंद्र आनंदराव यादव लक्ष्मणराव आनंदराव यादव सोपान आनंदराव यादव बाजीराव युद यादव गणपत यदु यादव
		850 भाग	300	निजी	रामचंद्र गंगाराम रिठे, लक्ष्मणराव गंगाराम रिठे
		937 भाग	100	निजी	विठ्ठल दादुराम यादव शेवंता सर्जेराव महागरे सुलाबाई दत्तु दुधाने जनाबाई धोंडुबा गोले अन्य अधिकार पारगांव विकास सोसायटी
		939 भाग	100	निजी	महादु सदु रिठे सुभेदार शंकर गायकवाड बबन शंकर गायकवाड सोनुबाई शंकर गायकवाड रामचंद्र बाबुराव गायकवाड अशोक बापूराव गायकवाड अन्य अधिकार हिराबाई अण्णा बोबडे सुंदराबाई शंकर चव्हाण गिरजाबाई बापूराव गायकवाड
		940 भाग	100	सरकार	महाराष्ट्र शासन
		950 भाग	1500	निजी	शंकर श्रीपती ढमाल दीनकर श्रीपती ढमाल बालकृष्णा श्रीपती ढमाल

						आबा कृष्णा भोसले नारायण धोंडीबा रिठे सदाशिव श्रीपती ढमाल व्यंकट बाला पाटील भ्रामदेव सावला रिठे व्यंकट सावला रिठे आनंदा सावला रिठे विठ्ठल बाला पाटील, पांडुरंग बाला पाटील नारायणबाला पाटील, रामचंद्र कृष्णाजी भोसले राणोजी कृष्णाजी भोसले शिवाजी रामभाऊ यादव रामचंद्र बापूराव गायकवाड अशोक बापूराव गायकवाड अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव सुंदराबाई शंकर चव्हारण गिरजाबाई बाबूराव गायकवाड
			949	800	सरकार	महाराष्ट्र शासन
			951 भाग	100	निजी	नारायण धोंडीबा रिठे
			952 भाग	700	निजी	आबा कृष्णा भोसले नारायण धोंडीबा रिठे व्यंकट बलवंत पाटील विठ्ठल बाला पाटील, पांडुरंग बाला पाटील, नारायण बाला पाटीलन रामचंद्र कृष्णाजी भोसले राणोजी कृष्णाजी भोसले महादेव वामन ढमाल सुभाष वामन ढमाल विलास वामन ढमाल, जयसिंग वामन ढमाल शिवाजी रामभाऊ यादव आनंदराव सावला रिठे, नामदेव सावल रिठे रामचंद्र बापूराव गायकवाड, अशोक बापूराव गायकवाड विश्वास व्यंकटराव गायकवाड अन्य अधिकार चांगुणाबाई कृष्णा यादव कृष्णाबाई महावदेव भिलारे

						अनुसया श्रीपती जायगुडे पार्वती सिताराम चव्हाण रंगुबाई श्रीरंग चव्हाण सिताबाई ज्ञानोबा जाधव, बबई बबन जाधव, सुंदराबाई शंकर चव्हाण गिरजाबाई बापूराव गायकवाड शांताराम व्यंकट गायकवाड शंकर व्यंकट गायकवाड सुनंदा भगवान जाधव, ढकुबाई व्यंकट गायकवाड
			रोड	500	सरकार	महाराष्ट्र शासन
			नाला	500	सरकार	महाराष्ट्र शासन
			1389 भाग	100	निजी	बाबासाहेब तयाजी रिठे, आबासाहेब तयाजी रिठे
			1390 भाग	100	निजी	आनंदराव सावला रिठे नामदेव सावला रिठे विश्वास व्यंकट गायकवाड अन्य अधिकार शांताराम व्यंकट गायकवाड शंकर व्यंकट गायकवाड सुनंदा व्यंकट गायकवाड ठकुबाई व्यंकट गायकवाड ग्रामीण विकास सह सोसायटी पारगाव
			1381 भाग	100	निजी	मारुती गणपती गायकवाड
			1392 भाग	100	निजी	नाशायण धोंडीबा रिठे अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1393 भाग	100	निजी	गोविंद गणपती गुलुंभकर सोपान गणपती गुलुंभकर अन्य अधिकारी ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1394 भाग	300	निजी	चंद्रकांत मारुती रिठे ऊर्फ गायकवाड
			1395 भाग	100	निजी	कालिका इंजीनिअरिंग अँड स्ट्रिगज लिमिटेड संचालक रामचंद्र आनंदराव जगताप सिताबाई गुरुनागराज कपाटे अन्य अधिकार गणपती श्रीपती गुलुंभकर

			1396 भाग	100	निजी	धर्मराज जयराम पवार किसान जयराम पवार
			1397 भाग	100	निजी	अशोक रामचंद्र ढमाल, अरविंद रामचंद्र ढमाल सुनील रामचंद्र ढमाल
			1398 भाग	100	निजी	महादेव वामन ढमाल सुभाष वामन ढमाल विलास वामन ढमाल जयसिंग वामन ढमाल
			1400 भाग	100	निजी	निवृत्ती दिनकर ढमाल मारुती दिनकर ढमाल ज्ञानोबा दिनकर ढमाल धर्माजी दिनकर ढमाल
			1401 भाग	400	निजी	आंबा कृष्णा भोसले राणोजी कृष्णाजी भोसले
			1402 भाग	200	निजी	पोपट महादेव रिठे बाबासो महादेव रिठे अन्य अधिकारी मालन सुदाम भोसल अनुसया महादेव रिठे
			1403 भाग	200	निजी	दत्तात्रय धोंडीबा गायकवाड राजेंद्र धोंडीबा गायकवाड अन्य अधिकारी ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव आनंदराव मारुती गायकवाड शालन विठ्ठल उबार कर द्वारकाबाई धोंडीबा गायकवाड
			1404 भाग	200	निजी	सदाशिव यादवराव गायकवा सुरेश यादवराव गायकवाड अशोक यादवराव गायकवाड अन्य अधिकार लिलाबाई गंगाराम पवार सुलोचना राजन भोसले जनाबाई यादवराव गायकवाड
			1406 भाग	100	निजी	रामचंद्र बाला रिठे आहिल्सा कृष्णाजी गायकवाड अन्य अधिकार विकास सोसायटी पारगाव रुक्मिणीबाई आबाजी गायकवाड राणी आबाजी गायकवाड भानुदास आबाजी गायकवाड विश्वास आबाजी गायकवाड

					आशा सुभेदार जगताप अरुणा आबाजी जगताप मनोज कृष्णाजी गायकवाड शितल कृष्णाजी गायकवाड शशिकांत कृष्णाजी गायकवाड, कीर्ति कृष्णाजी गायकवाड
		1407 भाग	100	निजी	दिलीप विठ्ठल गायकवाड
		1408 भाग	100	निजी	तुकाराम आनंदराव गायकवाड सिताराम आनंदराव रिठे
		1409 भाग	200	निजी	किसान रावबा गायकवाड अन्य अधिकार यशोदाबाई गुलाबराव पवार दगडाबाई खाशाबा जाधव, सुलाबाई दिगंबर भिलारे, नकुसाबाई साहेबराव भरगुडे फुलाबाई महादेव भुईटे सुभद्राबाई भाऊसो डमाल सखुबाई दिनकर महागरे बैंक ऑफ बडोदा
		1410 भाग	100	निजी	ममनु आप्पाजी गायकवाड तुकाराम आप्पाजी गायकवाड भिमचंद आप्पाजी गायकवाड अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
		1411 भाग	300	निजी	चिमाजी गेनू रिठे, निवृत्ती चिमाजी रिठे, भगवान सदाशिव रिठे निवृत्ती चिमाजी रिठे गेनबा चिमाजी रिठे सचीन, रत्ना, सुवर्णा, यमुना शिवाजी गायकवाड तानाजी मारुती गायकवाड अरविंद मारुती गायकवाड अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
		1412 भाग	100	निजी	नागेश विठ्ठल गायकवाड मधुकर विठ्ठल गायकवाड विष्णु विठ्ठल गायकवाड शिवाजी विठ्ठल गायकवाड
		1413 भाग	100	निजी	कमलाकर दगडोबा गायकवाड सुधाकर दगडोबा गायकवाड

						मोहन दगडोबा गायकवाड बालसो भिकोबा गायकवाड दशरथ भिकोबा गायकवाड संजय वसंतराव गायकवाड दीपक वसंतराव गायकवाड अन्य अधिकार शोभा बापूराव मोरे कुसुम वसंतराव गायकवाड
			1414 भाग	100	निजी	मानसिंग राजाराम रिठे बाजीराव कृष्णा गायकवाड राजाराम लक्ष्मण जायगुडे
			1415 भाग	300	निजी	नारायण गोविंद गुलुंमकर अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1416 भाग	300	निजी	जयवंत लालकृष्णा यादव अन्य अधिकार ग्रामीण विकास पारगांव सोसायटी पारगाव लक्ष्मीबाई बालासो गाढवे कृष्णाबाई प्रभाकर चव्हाण सरूबाई शिवराम यादव संतोष, संदीप, मंगल, बालकृष्ण यादव सुभद्राबाई बालकृष्ण यादव
			1417 भाग	600	निजी	अशोक शंकरराव यादव बाबूराव शंकरराव यादव शिवलिंग शंकरराव यादव भगवान शंकरराव यादव हिंदूराव दिनकररावयादव तान्हाजी दिनकरराव यादव
			1046 भाग	200	निजी	कोडीबा गणपत ढमाल
			1043 भाग	200	निजी	चिमाजी गेणू रिठे निवृत्ती चिमाजी रिठे भगवान सदाशिव रिठे गेणबा चिमाजी रिठे सचिव, रतना, सुवर्णा, यमुना, शिवाजी गायकवाड तानाजी मारुती गायकवाड अरविंद मारुती गायकवाड
			1038 भाग	400	निजी	गणेश अंकुश रिठे उर्फ गायकवाड अन्य अधिकार

						ग्रामीण विकास सोसायटी, पारगांव मोहन, सुरेश, अंकुश रिटे
			1040 भाग	200	निजी	बाई वसंतराव पवार
			1042 भाग	200	निजी	ममतू अप्पाजी गायकवाड तुकाराम अप्पाजी गायकवाड भीमचंद अप्पाजी गायकवाड अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1037 भाग	400	निजी	रामचंद्र गंगाराम रिटे लक्ष्मण गंगाराम रिटे
			1031 भाग	200	निजी	रामचंद्र बाला रिटे अहिल्या कृष्णाजी गायकवाड अन्य अधिकार रुक्मिणी आबाजी गायकवाड भानूदास आबाजी गायकवाड विश्वास आबाजी गायकवाड आशा सुभेदार जगताप अरुणा महादेव जगताप मनोज कृष्णाजी गायकवाड शितल कृष्णाजी गायकवाड शशिकांत कृष्णाजी गायकवाड कीर्ति कृष्णाजी गायकवाड
			1033 भाग	100	निजी	धर्मू बालू पवार, रामचंद्र बालू पवार
			1030 भाग	3500	निजी	सायबू नारायण गुलूमकर प्रदीप निवृत्ती ढमाल विक्रम निवृत्ती ढमाल अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाव
			1021 भाग	100	निजी	चिमाजी गेणू रिटे, निवृत्ती चिमाजी रिटे, भगवान सदाशिव रिटे गेणबा चिमाजी रिटे, शिवाजी चिमाजी रिटे, तानाजी मारुती गायकवाड अरविंद मारुती गायकवाड
			1018 भाग	100	निजी	दत्तात्रय धोंडिबा गायकवाड राजेंद्र धोंडिबा गायकवाड अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी

						पारगाव आनंदराव मारुती गायकवाड शालन बोरकर द्वारकाबाई धोंडिका गायकवाड
			1017 भाग	100	निजी	पोपट महादेव रिठे बाबासो महादेव रिठे, अनूसया, अन्य अधिकार, मालन सुदाम भोसले अनूसया महादेव रिठे
			1016 भाग	100	निजी	सदाशिव यादवराव गायकवाड सुरेश यादवराव गायकवाड अशोक यादवराव गायकवाड अन्य अधिकार लिलाबाई गंगाराम पवार सुलोचना राजन भोसले जनाबाई यादवराव गायकवाड
			1015 भाग	400	निजी	शिवाजी रामचंद्र यादव भगवान रामचंद्र यादव अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1014 भाग	200	निजी	शिवाजी रामचंद्र यादव विठ्ठल रामचंद्र यादव अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1013 भाग	200	निजी	विठ्ठल रामचंद्र यादव, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1012 भाग	200	निजी	विठ्ठल रामचंद्र यादव, अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			1010 भाग	700	निजी	महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लि० मुंबई उपशाखा लोणंद रामचंद्र कृष्णाजी भोसले
			1009 भाग	200	निजी	शंकर यदू गायकवाड जगन्नाथ यदू गायकवाड विठ्ठल यदू गायकवाड दत्तात्रय यदू गायकवाड

						विजय यदू गायकवाड
			1008 भाग	200	निजी	नारायण धोंडीबा रिठे
			1007 भाग	200	निजी	बाबासो तयाजी रिठे आबाजी तयाजी रिठे
			1006 भाग	100	निजी	नाना गणपती रिठे खाशाबा विष्णू रिठे चंद्रकांत पिराजी गायकवाड अन्य अधिकार वसंत पिलाजी गायकवाड जयश्री पिलाजी गायकवाड सिंधू पिलाजी गायकवाड इंदूबाई पिलाजी गायकवाड
			1005 भाग	200	निजी	व्यंकट बलवंत पाटील विठ्ठल बाला पाटील पांडुरंग बाला पाटील नारायण बाला पाटील
			1026 भाग	900	निजी	नागेश विठ्ठल गायकवाड मधुकर विठ्ठल गायकवाड विष्णु विठ्ठल गायकवाड शिवाजी विठ्ठल गायकवाड अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव
			रोड	100	सरकारी	महाराष्ट्र शासन
			941 भाग	200	निजी	आबा कृष्णा भोसले व्यंकट बाला पाटील चंद्रकांत मारुती रिठे उर्फ गायकवाड शंकर दिनकर बालकृष्ण सदाशिव श्रीपती ढमाल विठ्ठल बलवंत पाटील, पांडुरंग बलवंत पाटील, नारायण बलवंत पाटील, रामचंद्र कृष्णाजी भोसले राणोजी कृष्णाजी भोसले शिवाजी रामभाऊ यादव विठ्ठल दादुराव यादव धर्मराज जयराम पवार किसन जयराम पवार, रामचंद्र बाबूराव गायकवाड अशोकबापूराव गायकवाड शेंवता सर्जेराव महागरे सुलाबाई दत्तू दूधाणे,

						जनाबाई धोंडीराम गोले अन्य अधिकारी सुंदराबाई शंकर चव्हारण गिरजाबाई बापूराव गायकवाड
			1075 भाग	3100	निजी	मानसिंग तुकाराम रिठे बालू मारुती गायकवाड ज्ञानोबा मारुती गायकवाड जयसिंग मारुती गायकवाड दत्त मारुती गायकवाड
			1074 भाग	2200	निजी	नाना गणपती रिठे खाशाबा विष्णु रिठे, चंद्रकांत पिलाजी गायकवाड अन्य अधिकार वसंत पिलाजी गायकवाड जयश्री पिलाजी गायकवाड सिधू पिलाजी गायकवाड इंदूबाई पिलाजी गायकवाड
			1070 भाग	500	निजी	कालू कृष्णा खोपड़े
			1069 भाग	100	निजी	संतोष कुमार भगवान रिठे, अन्य अधिकार गणपती श्रीपती यादव ग्रामीण विकास सोसायटी पारगाँव
			1048 भाग	100	निजी	कालू कृष्णा खोपड़े
			1047 भाग	400	निजी	कोंडीराम गणपती ढमाल अन्य अधिकार चंद्रभागाबाई गणपती ढमाल सुमन गणपती ढमाल सीता राजाराम धायते बैंक ऑफ बड़ोदा

			857 भाग	6100	निजी	<p>रामचंद्र बाला रिटे, अशोक रामचंद्र ढमाल नथू जगन्नाथ ढमाल दत्तू जगन्नाथ ढमाल दिलीप जगन्नाथ ढमाल आनंदराव साहेबराव ढमाल गणपत साहेबराव ढमाल प्रल्हाद साहेबराव ढमाल विठ्ठल हैबती ढमाल लक्ष्मण हैबती ढमाल भरत शिवराम ढमाल, मानिसंग शिवराम ढमाल अशोक वामन ढमाल सुभाष वामन ढमाल विलास वामन ढमाल जयसिंग वामन ढमाल गणेश अंकुश रिटे अरविंद रामचंद्र ढमाल सुनील रामचंद्र ढमाल अंकुश दादासो ढमाल अन्य अधिकार मोहन रिटे सुरेंद्र रिटे, अंकुश रिटे नारायण दादासो ढमाल सखुबाई दादासो ढमाल सुरेखा अंकुश रांगोले पुष्पा अशोक खंडागले सुनीता रामदास चव्हाण भारती बालासो चव्हाण</p>
			789 भाग	1500	निजी	<p>तानाजी गुलाबराव यादव सुरेश गुलाबराव यादव सदाशिव गुलाबराव यादव साखराबाई गुलाबराव यादव शालन मानसिंग यादव कृष्णाबाई गुलाबराव यादव अन्य अधिकार ग्रामीण विकास सोसायटी पारगांव</p>
			1183 भाग	2000	निजी	<p>किसान रावबा गायकवाड अन्य अधिकार यशोदाबाई गुलाबराय पवार दगडाबाई खाशाबा जाधव, सुलाबाई दिगंबर भिलारे</p>

						नकुसाबाई साहेबराव भरगुडे फुलाबाई महादेव भुईंटे सुभद्राबाई भाउसाहेब ढमाल सखूबाई दिनकर महागरे
		(3) कस्वे मजारे शिरवाल	326/1 भाग	11575	निजी	बाबासाहेब रामू मोटे श्रीरंग रामू मोटे अरिवंद आंबाजी मोटे कृष्णा आबा मोटे बाबा रामा तालिवार कृष्णा आबागोरे बाबा बालू पिसे मारुती बालू पिसे सालू बालू पिसे संपत बालू पिसे मल्हारी जानकु पिसे येसू घोसू काले महादू भिवा शेंडगे बालू बाबू पिसाल दिनकर धोंडी जानकर मालू धोंडी मोटे दादू धोंडीमोरे, दगडू शिदू शिंदे गणपती कृष्णा मोटे दादा बाबूराव मोटे महादू बापू मोटे सावला ठकू मोटे राघू भागू मोटे शिवराम आबा मोटे बालकृष्ण सुबत्रा शेटी गोविंद हरीचंद्र अग्रवाल नारायण महादेव पवार कोंडी सादू पिसाल सोमा सादू पिसाल बालू विठू मोटे सखाराम विठू मोटे लक्ष्मण रामू मोटे तुकाराम गुजाबा मोटे नारायण कृष्णा मोटे नामदेव बाजी मोटे चंद्रकांत राघू मोटे आबा कृष्णा मोटे आनंदा जना मोटे सोमा आप्पा मोटे

					<p> खंडू ठकू तालिवार पुरुषोत्तम बंसीलाल राठी सोमनाथ बंकटलाल राठी विजय शिवदास राठी श्रीराम शंकरलाल राठी संपतलाल शंकरलाल राठी बापू आबा केसकर शिवराज हिरू केसकर जिजाबा रामू मोटे कोंडी तुकाराम देवकाते कृष्णा शंकर काले सोमा संतु मोटे भागू घोसू काले भाउ सतू काले भागू घोसू काले सादू घोसू काले, मारुती बापू तालिवार यदू बापू मोटे सौ वत्सला रघुनाथ जगताप सौ सुशीला शिवराम अररा छाया शांताराम जमदाडे अच्युत काशिनाथ देशपांडे दत्तात्रये गोविंद कुलकर्णी कुसुम दत्तात्रय कुलकर्णी सतीश दत्तात्रय कुलकर्णी जयवंत शंकर कडोले, शांता अनंता मोडाशिंदी, माणिकराव नारायण कडाले संपतराव आनंदराव जगताप किसन सर्जेराव लियन अशोक जगन्नाथ मालदवे चंद्रकांत काशीनाथ वैदपाठक हिराबाई दिनकर राउत नारायण देवबा दगडे मुक्ताबाई नानासो भुजबल शिवाजी आबाजी मोटे अंतरलाल रगा मारवाडी सुरेश गोकुल मारवाडी वसंत शंकर भोसले रहीमत तुल्ला अमानुल्ला पठाण शमा उल्लाअमानुल्ला पठाण, लक्ष्मी छायाप्रकाश काले नामदेव भिकोबा जाधव विठ्ठल भिकोबा जाधव, </p>
--	--	--	--	--	--

						संतोष सूर्यकांत तरगा, केशव दत्तात्रय उत्तरकर विठ्ठल बजाबा महागडे संदीप छगन मारवाडी अन्य अधिकार कृष्णकांत रघुनाथ डिंबले ज्ञानदीप को ऑफ क्रेडिट सोसायटी सुशिकर निमराज आरस, माणीक नारायण कडाले दि कराड जनता सह बैंक लि० कराड बाई श्रीमंत मोतीजीराज सह बैंक लि० पलटण भानुदास रामचंद्र जमदाडे वसंत शंकर भोसले.
			326/2 भाग	3030	निजी	महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल
			315 भाग	48	निजी	तुकाराम नामदेव शिंदे श्रीमती पातलाबाई निवृत्ती शिंदे तुकाराम धोंडीबा शिंदे मंगला बापूराव बलकुंदे
			319 भाग	1210	निजी	जोनीबा देव वहिवाटदार
			323 भाग	1275	निजी	यादव इंजीनिअरिंग वर्क्स, पार्टनर अलार्ड इंडस्ट्रीज लि० प्लास्टिक डिवीजन तपड्डे, लालबहादुर राम यादव कृषि उद्यमन बाजार समिति लोणंद गणपतराव सोपानराव यादव
			324 भाग	675	निजी	यादव इंजीनिअरिंग वर्क्स पार्टनर अलार्ड इंडस्ट्रीज लि० प्लास्टिक डिवीजन तरफ लालबहादुर रामयादव कृषि उद्यमन बाजार समिति लोणंदचे गणपतराव सोपानराव यादव राम यादव महावीर यादव
			325 भाग	838.5	निजी	यादव इंजीनिअरिंग वर्क्स, पार्टनर अलार्ड इंडस्ट्रीज लि० प्लास्टिक डिवीजन तर्फे, डॉ० लालबहादुर रामयादव कृषि उद्यमन बाजार समिति लोणंदचे विद्यमान चेअरमेन गणपतराव

						सोपानराव यादव राम यादव महावीर यादव
			339 भाग	25	निजी	संपत बबन कांबले नागू खंडू जाधव दिनकर धाकू कांबले जिजाबाई राउ कांबले शंकर बहिरू कांबले निवृत्ती नामदेव कांबले
			340 भाग	224	निजी	कोडीबा गेनबा जाधव
			341 भाग	296	निजी	विजय बबनराव राउत जनदिन बबनराव राउत अन्य अधिकार, मुक्ताबाई बबनराव राउत
			342 भाग	1100	निजी	लक्ष्मण राव कांबले शंकर कोडिबा राउत
			343 भाग	504	निजी	निवृत्ती नामदेव कांबले अन्य अधिकार, खंडू विठू जाधव
			344 भाग	6270	निजी	कृष्णराव सदाशिव देशमुख संभाजी सदाशिव देशमुख शंकर सदाशिव देशमुख लक्ष्मण धोंडिबा डेरे सुमन ज्ञानोबा देशमुख दत्तू विष्णू कुचेकर दिगंबर विष्णू कुचेकर ज्ञानेश्वर केशव मांढरे लक्ष्मीबाई गणपत मांढरे चंद्रकांत नारायण जमदाडे महादेव नारायण जमदाडे संजय नारायण जमदाडे रंजना दिगंबर कुचेकर शिवाजी शंकर देशमुख राजेंद्र कृष्णराव देशमुख प्रमोद कृष्णराव देशमुख शोभा चंद्रहार माने उषा अनिल थिंगले दिगंबर विष्णू कुचेकर रेश्मा अंकुश मुखेकर रामदास बाजीराव नेवसे दिलीप विठ्ठल राउत सुमन ज्ञानोबा देशमुख लता सूर्याजीराव देशमुख विठ्ठल संभाजी राउत

						चंद्रकांत नारायण जमदाडे भीमराव सावलाराम शिंदे दिलीप भिमराव शिंदे, लिलाबाई भीमराव शिंदे सौ शांताबाई नारायण राउत सौ सुमन महादेव राउत सौ उज्वला संजय राउत सुशिल र.निवृत्तिवाल, मै. फेअर लॅन्स स्टड फार्मस लि० तर्फे डायरेक्टर सुशील आर निवेतिया अन्य अधिकार भारतीय स्टेट बैंक शिरवल बेबी ज्ञानोबा देशमुख राजेन्द्र ज्ञानोबा देशमुख मधुकर ज्ञानोबा देशमुख
			399 भाग	400	निजी	धर्मशाला
			1399 भाग	432	निजी	संपत बबन कांबले अन्य अधिकार बंडु यासनि शेख
			348 भाग	1500	निजी	अरविंद संतराम राउत आनंदराव संतराम राउत रामचंद्र संतराम राउत, लक्ष्मण संताराम राऊव.
			350 भाग	1920	निजी	किसान धोंडिबा जमदाडे कुडलिक नारायण जमदाडे चंद्रकांत नारायण जमदाडे महादेव नारायण जमदाडे संजय नारायण जमदाडे भालचंद्र नामदेव उतरकर दिनायक नामदेव उतरकर प्रशांत ज्ञानेश्वर धोंडगे साधना ज्ञानेश्वर धोंडगे, कांतीलाल नेमचंद दोशी
			351 भाग	105	निजी	बशिरखान चांदखान पठाण सौ शमसुत्रीसा इकबाल पटेल अन्य अधिकार शिरवल विकास सोसायटी
			353 भाग	855	निजी	सौ शमसुत्रीसा इकबाल पटेल, शिवाजी हणमंत जाधव ईश्वर तात्याबा जाधव अन्य अधिकार विकास सोसा खंडला

						बालकृष्ण दत्तात्रय पवार बशिरखान चांदखान पठाण जयश्री चंद्रकांत पवार पांडुरंग महादेव रांगोले हरि महादेव रांगोले ज्ञानेश्वर महादेव रांगोले रमाकांत महादेव रांगोले कल्पना शंकर धुमाल मारुती बाबूराव कारल अन्य अधिकार शिखल विकास सोसायटी
			354 भाग	210	निजी	दशरथ कोंडिबा कदम गणपतराव सोपान कदम संपत गणपतराव कदम कल्याण गणपत राव कदम संदीप दशरथ कदम अन्य अधिकार बैंक ऑफ इण्डिया शिरवल
			355 भाग	855	निजी	राहुल शरद शहा मनोहर ट्रेडिंग कंपनी
			360 भाग	600	निजी	मारुती सखाराम खोपडे शरद आप्पासो पवार
			361 भाग	330	निजी	नारायण रामचंद्र जाधव ज्ञानोबा रामचंद्र जाधव कुंडलीक रामचंद्र जाधव महादेव रामचंद्र जाधव
			362 भाग	375	निजी	विजय कुमार वामनराव कुंभार अन्य अधिकार निरा नागरी सहाकारी पतपेली मर्यादित विकास सोसायटी शिरवल
			376 भाग	1440	निजी	दि. बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्टे कार्पोरेशन
			398 भाग	750	निजी	बेबी उर्फ सुनंदा नामदेव ज्ञानदेव शिंदे अक्षय को ऑप हौ सो प्रमोटर सुदाम गणपती डोईफोडे शिरीष श्रीराम तांबे रामदास शंकर डोई फोडे दीपक वल्लभदास गुजर प्रमोद वल्लभदास गुजर नजमा इनामभाई बागवान हिंदुराव मारुतराव ढमाल

					बालकृष्ण भाऊसाहेब चव्हाण ज्ञानेश्वर रघुनाथ संकपाल सुभद्राभाई सोपान भरगुडे बालकृष्ण श्रीपती तांबे तुकाराम वामन चव्हाण विठ्ठल वामन चव्हाण मारुती वामन चव्हाण कोंडिबा गणपत तारु मुरलीधर गणपत तारु शंकर सिनाराम जेईफोर्ड सौ प्रभावती धर्माजी भोसले रफीकइगमसुदीनखान अन्य अधिकार कुसुम वल्लभदास गुजर अनिता वल्लभदास गुजर
			400 भाग	375	निजी सौ सुजाता मधुकर कांबले सौ रेखा मुकूंद फाटक जयवंत लक्ष्मण माने बालासाहेब शेटीबा पवार आप्पासाहेब आनंदराव देशमुख पातलाबाई शंकरराव देशमुख देवकांत रंगनाथ कलकर्णी डॉ अजीत माधव कदम उमादेवी गोंविंद प्रसाद अग्रवाल डॉ सौ लता अजीत कदम भास्कर श्रीधर पोरे भरत पांडूरंग खोंगरे सुनीता सुधाकर तारु आनंदराव दगडोबा धोलप राजाराम चिमाजी कारले विक्रम आप्पासाहेब देशमुख संग्राम आप्पासाहेब देशमुख दिलीप बालकृष्ण दाभोले सौ सुजाता मधुकर कांबले हरीप्रसाद डाहयाभाई जोशी ज्ञान प्रबोधीनी मेडीकल ट्रस्ट पुणे तरफ सचिव शरद गांधी इसाक गलाबभाई शेख डॉ राजेंद्र गजानन देशमुख डॉ. दिपा राजेन्द्र देशमुख शिवाजी नानासाहेब देशमुख अन्य अधिकार शिरवल ग्रामीण विकास सोसायटी

						वाई अर्जन को ऑपरेटिव बैंक लि० वाई
			1398 भाग	1654	निजी	दि बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन
			1298 भाग	1389	निजी	सोनिया विवेक देशपांडे चंदा विवेक देशपांडे पुष्पाशील जनार्दन देशपांडे विवेक जनार्दन देशपांडे श्री सुहास विवेक देशपांडे
			1299 भाग	900	निजी	कालिंदी युवराज पापल मुरलीधर यदू कबुले विजय कुमार यादव पापल, अन्य अधिकार, जिजाबाई, धोंडीबा तांबे.
			1300 भाग	336	निजी	पोपट महादेव कबुले, पांडुरंग महादेव कबुले, सोपान महादेव कबुले, अन्य अधिकार, कमल दामोदर महागरे, लक्ष्मीबाई महादेव कबुले, विमल बबन मिलारे.
			1301 भाग	420	निजी	सौ शिला विनय जोगलेकर, विनय मुकूंद जोगलेकर, रोहिदास शंकरराव मरगजे, दत्तात्रय गणपतराव राउत, लक्ष्मण एकनाथ चांदवडकर, हरीभाऊ बयाजी शिंदे, राजाराम संभाजी राणे, संभाजी शिवाजी भोसले.
			1302 भाग	280	निजी	सौ शिला विनय जोगलेकर, राजेंद्र नारायण राउत, रमेश रामदास भुजबल, पांडुरंग तुकाराम कबुले, दत्तात्रय तुकाराम कबुले, पार्वती तुकाराम कबुले, सुमन वसंतराव काटे, गणेश वसंतराव काटे, नुतन अभंग डोंगरे, प्रभावती प्रकाश काटे, संदेश प्रकाश काटे, अन्य अधिकार, पुरुषोत्तम नारायण राउत, सुनिता सुभाष बनकर,

						संगिता नारायण राउत, सोनाबाई नारायण राउत.
			1303 भाग	420	निजी	ओंकार विनय जोगलेकर, मृधा विनय जोगलेकर, शिला विनय जोगलेकर, विलास तुकाराम मोरे, शंकर जगन्नाथ कबुले, निवृत्ती जगन्नाथ कबुले, सदाशिव जगन्नाथ कबुले, रुख्मिणी नवनाथ भरगुडे, ज्ञानेश्वर गोविंद तारु, अन्य अधिकार, भारतीय स्टेट बैंक शिरवल, दि वाई अर्बन को ऑप बैंक लि.
			1304 भाग	280	निजी	राजाराम श्रीपति चव्हाण, सरुबाई नामदेव निगडे, अन्य अधिकार, नितीन नामदेव निगडे, संजय नामदेव निगडे, सुजाता नामदेव निगडे.
			1305 भाग	600	निजी	गुलाब पांडुरंग निगडे, भाऊ पांडुरंग निगडे, पोपट पांडुरंग निगडे, जनाबाई पांडुरंग निगडे,
			1306 भाग	1120	निजी	कृष्णकांत बलवंत भापाशी, सदाशिव महादेव विमुते, सौ लीला गोविंद रजपूत, अर्जुन सुगत रजपूत, प्रकाश मनोहर रजपूत, रतिलाल माणिकलाल गुजर, कृष्णा केसू घाडगे, अरूणा सुरेश गुजर, मेहबूब करीमभाई शेख, माणिकलाल गुजर, तुकाराम गणपती कबूले, वसंत शंकर भदाणे, मल्हारी भगवान कांबले, संपतराव आनंदराव जगताप, बालासो धोडिराम चव्हाण, विकास गोविंद अग्रवाल, विनोद गोविंद अग्रवाल, सत्यवान प्रेमनाथ शिंदे, रोहिदास दिनकर माढरे,

					अशोक पांडुरंग निकम, शुभांगी सजय कासूई, सौ शशिकला किसन मोहन, मनोहर सखाराम चौगुले, रंजना चंद्रकांत खोपडे, गंगाबेन विश्राम पटेल, कांताबेन दामजी पटेल, लक्ष्मण बाबुराव पवार, नवनाथ एकनाथ कबूले, ललीता नारायण गुजर, प्रताप हिंदूराव निकम, सुनिता नारायण चव्हाण, अन्य अधिकार, चंदन नारायण गुजर, प्रकाश नारायण गुजर, दिलीप नारायण गुजर, अरुणा संदेश गुजर, ज्ञानद्विप को ऑप केडीट सोसायटी खंडाला,
		1307 भाग	900	निजी	वसंत विश्वनाथ मांडके, शरदचंद्र विश्वनाथ मांडके, लक्ष्मण रामभाऊ निगडे, शरद खंडेराव पराडे, मुक्ताबाई रघुनाथ डिबले, संजय भालचंद्र खाजगीवाले, पदमावती मोहनलाल लाहौटी, लक्ष्मीकांत मोहनलाल राठी, अमीर अल्लबक्ष खान, शब्बीर अल्लाबक्ष खान, सौ मरीयमबी अकबर पटेल, सौ उर्मिला विजय भुजवा, निर्मलकुमार रामविलास रुईया, सौ प्रभावती शिवदास लाहौटी, दत्तात्रय रंगनाथ कलकर्णी.
		1318 भाग	705	निजी	आशा रेहिदास गायकवाड़, सरुबाई बाबुराव तांबे, शोभा रोजेद्र गाडे, नलिनी अरविंद वालिबे,
		1335 भाग	375	निजी	हणमंत हरीभाऊ देशपांडे.
		1336 भाग	600	निजी	दत्तात्रय यशवंत निगडे, सौ शकुंतला विठठलराव सणस, सुवर्णा रामा चौगुले, निवास बापू चौगुले,

						विजय बाबासो भाबड, भास्कर सदाशिव चव्हाण. राजेंद्र दिनकर तापडे, संजय लहानू थोराल, बालासो मुरलीधर दाते,
			1351 भाग	975	निजी	बाबुराव गोविंद शिर्के, अजय बाबुराव शिर्के.
			1352 भाग	210	निजी	बाबुराव गोविंद शिर्के, अजय बाबुराव शिर्के, अन्य अधिकार, माधवराव व्यंकटेश शिंगटे.
			1353 भाग	330	निजी	अजित बुबाखान नायक वडी.
			1354 भाग	1020	निजी	बाबुराव गोविंद शिर्के, अजय बाबुराव शिर्के, अन्य अधिकार, बुबाखान इब्राहीम नायक वडी, दिलबर अब्ला.
			1356 भाग	840	निजी	महमूद ननुमाई नायकवडी, बाबुराव गोविंद शिर्के, अजय बाबुराव शिर्के, बसीर बसूभाई नायकवडी, बिसमिल्ला मगबूल नायक वडी, दिलावर मगबूल नायक वडी, नूरजहाँ बबन सय्यद, शकिरा इक्बाल शेख, नसीमा जमाल पानसरे, जाकिरा नजीर इनामदार, हाजीभाई प्यारअली सनानी, उमेदभाई हमीदभाई दोडिया, सुधाकर हणमंतराव बोरावडे, अमीरभाई प्यारअली सनानी, अन्य अधिकार, सत्तार, जुब्बर, न्याजबी, जमाल शेख, व फातमाबी बसूभाई नायकवडी.
			1358 भाग	390	निजी	नारायण रामचंद्र जाधव, ज्ञानोबा रामचंद्र जाधव, कुडलिक रामचंद्र जाधव, महादेव रामचंद्र जाधव, श्री अ.आर.नागराज
			1337 भाग	900	निजी	ब्राउन पेपर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड

			1338 भाग	1950	निजी	ब्राउन पेपर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड
			1339 भाग	450	निजी	ब्राउन पेपर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड
			1340 भाग	450	निजी	हणमंत हरीभाऊ देशपांडे.
			1341 भाग	825	निजी	ब्राउन पेपर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड
			1342 भाग	1875	निजी	लातिफ आजिजखान नायकवडी, बाबुराव गोविंद शिर्के.
			1349 भाग	2250	निजी	बाबुराव गोविंद शिर्के, अजय बाबुराव शिर्के.
			1350 भाग	750	निजी	शब्बीर अब्बासभाई मुजावर, शफीक अब्बासभाई मुजावर, रीयाज अब्बासभाई मुजावर, अन्य अधिकार, नियामतबी अब्बासभाई मुजावर, सौ वहिदा युसुफ मुलाणी, शकिला लियाकत शेख.
2.	सतारा	कस्बे लिम्ब	850/1 भाग	500	निजी	श्री लक्ष्मी नारायण देव, मेघना भालचंद्र घाणेकर, भालचंद्र शंकर वर्वे, पांडूरंग परशुराम बर्वे.
			851/1 भाग	300	निजी	लक्ष्मण बालू सावंत.
			851/2 अ भाग	200	निजी	भानुदास निवृत्ती सावंत, विठ्ठल रामचंद्र सावंत, सोपान रामचंद्र सावंत, कृष्णराव रामचंद्र सालगूडे, हणुमंत रामचंद्र सावंत, विठ्ठल बाजीराव सावंत, अशोक बाजीराव सावंत, सर्जेराव लक्ष्मण सावंत.
			851/2 ब भाग	200	निजी	विठ्ठल बाजीराव सावंत, अशोक बाजीराव सावंत
			851/3 भाग	700	निजी	रामचंद्र बालू सावंत, भानुदास बापू सावंत, हनुमुत पांडूरंग रासकर, रामचंद्र पांडूरंग रासकर, बबन पांडूरंग रासकर उत्तम पांडूरंग रासकर.
			981/2 भाग	1300	निजी	रामचंद्र महादेव सावंत, जितेंद्र सर्जेराव सावंत.
			982/1, 982/2 और 982/3 भाग	2050	निजी	भिकू बाला सावंत. आण्णा बाला सावंत, महादू बाला सावंत, भिकू बाला सावंत.
			995/1 और	7750	निजी	गंगाराम भिमाजी फरादे,

			995/2 भाग			बलवंत बाबुराव फरादे, बाबासाहेब बाबुराव फरांदे, शामराव बाबुराव फरांदे, प्रकाश सदाशिव फरांदे, दत्तात्रय माणिकराव फरांदे, लिलाबाई विष्णु जमदाडे, सुलोचना बबन नवसे, मनोरमा वसंतराव ससाणे, अन्य अधिकार, महाराष्ट्र राज्य भूविकास महामंडल मर्यादित पुणे .
			1003 भाग	3550	निजी	द्वारकानाथ यशवंत कुलकर्णी, विनायक रघुनाथ कुलकर्णी, लक्ष्मण महादेव कुलकर्णी, काशीनाथ सदाशिव कुलकर्णी, सुभाष नारायण कुलकर्णी, लक्ष्मण सदाशिव कुलकर्णी, अन्य अधिकार, नामदेव महादेव फरादे, ज्ञानेश्वर पांडुरंग फरादे, नारायण पांडुरंग फरादे,
			1004/2 भाग	800	निजी	शामराव लक्ष्मण बरकडे, रामचंद्र लक्ष्मण बरकडे, विष्णु लक्ष्मण बरकडे, विलास आनंदा बरकडे, दिलीप गोविंद बरकडे, नामदेव सखाराम बरकडे, अन्य अधिकार, लिब वि. का. से. सो. जंगूबाई लक्ष्मण बरकडे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा लिब.
			1005/1 भाग	1350	निजी	अमर श्रीरंग जाधव, गुलावराव मुकुटराव जाधव, मारुती मुकुटराव जाधव, शेखर साहेबराव जाधव, राहुल साहेबराव सावंत, अन्य अधिकार, दि सत्पाद्री सहकारी बैंक लि. शाखा सतारा.
			1006/1 भाग	700	निजी	अमर श्रीरंग जाधव, अन्य अधिकार, दि सत्पाद्री सहकारी बैंक लि. शाखा सतारा.

			1006/2 भाग	450	निजी	कृष्णा शंकर सावंत, जनार्दन कृष्णांत सावंत, गुलाबराव मुकुटराव सावंत, मारुती मुकुटराव सावंत, शेखर साहेबराव सावंत, राहुल साहेबराव सावंत.
			1007/1 भाग	3000	निजी	श्रीरंग नारायण मंडके, अन्य अधिकार, अभिजीत दत्तात्रय मंडके.
			1007/2 भाग	50	निजी	अलंकार दत्तात्रय मंडके, अमित दत्तात्रय मंडके, लता दत्तात्रय मंडके, अभिजीत दत्तात्रय मंडके, अन्य अधिकार, गणपती तुकाराम बरकडे, विठू पिराजी बरकडे.
			1009/1 भाग	750	निजी	तानाजी बाबुराव वर्णेकर, धनाजी बाबुराव वर्णेकर, विठ्ठल पांडुरंग सालगुडे, अन्य अधिकार, मुकुटराव वामन सावंत, साहेबराव वामन सावंत.
			1009/2 भाग	4500	निजी	विठ्ठल शंकर सावंत, कृष्णा शंकर सावंत, जनार्दन कृष्णा सावंत, गुलाबराव मुकुटराव सावंत, मारुती मुकुटराव सावंत, शेखर साहेबराव सावंत, राहुल साहेबराव सावंत, प्रदीप विठ्ठल सावंत, दिपक विठ्ठल सावंत, अंजना विठ्ठल सावंत.
			1009/3 भाग	200	निजी	अनुसया दादा सावंत.

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./13011/7/2003/चि.नि.]

अशोक जोशी, सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2003

s.O. 178(E).— WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 266 (E), dated the 28th February 2002, published in Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st March, 2002, issued under sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of construction (four-lanning) of National Highway No.4 on the stretch from Km. 725 to Km. 797 (Pune to Satara Section) in the District of Satara in the State of Maharashtra ;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government ;

NOW, THEREFORE, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose ;

AND, FURTHER in pursuance of sub-section (2) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Brief description of lands to be acquired for four-lanning of Pune-Satara Section of National Highways No.4 (Km.725 to Km.797)in Satara District in the State of Maharashtra.

DISTRICT : SATARA

Sr. No.	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey.No./ Gat.No.	Area Sq. Mt.	Type of Land	Name of the Owner of land or other Interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khandala	(1) Dhangerwadi	269Part	2700	Private	Gramin Vikas Society Pargaon. Shashikant Mahadev Golande, Purandardas Vasudev Shigate, Satyawar Shirikrishna Shigate, Badrinarayan Madhvraj Shigate, Govind Narshingh Shigate, Other Rights, Gopaikrishna Madhvraj Shingate, Kuanda Nanadakumar Despande, Venkatesh Raghawendra Shigate, Alkananda Shrikrishna Shingate, Vishnu Madhvraj Shigate , Damodar Madhvaraj Shigate.
			276 A Part	1300	Private	Laxman Chima Jankar, Tukaram Chima Jankar, Bapurao Chima Jankar, Nanba Chima Jankar, Chabutai Genba Jankar, Other Rights, Shavabai Mahlari Thombare, Gitabai Kondiba Devkate , Sitabai Raghunath Kabre, Dhondabai Chimaji Jankar, Sandeep Genba Jankar, Chandrakant Genba Jankar, Shobha Namdev Pisal, Sujata Genba Jankar, Bharatiya State Bank Branch Shirwal
			277Part.	300	Private	Shivaji Janaba Mote, Bhiva Janaba Mote
			278 Part.	300	Private	Sampat Aba Mote , Sou. Bilkisha Ekbal Shaikh
			279 Part.	400	Private	Chandar Naba Mote, Jaibai Naba Mote, Aba Krushna Mote, Ananda Janyaba Mote, Other Right,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Dhangerwadi Vikas Soccity
			280 Part.	600	Private	Vasudev laxsuman Shastri Joshi, Other Right, Dhangerwadi Vikas Society
			281/ A Part.	4100	Private	Dahyabhai Mansukh Joshi, Hariprasad Dhayabhai Joshi, Vilas Dynoba Todkari, Shailaja Chandrashekhar Mandke Chandrashekar or Shekar Vinayak Mandke,(joshi), Sou. Smita Suresh Tathwade, Suresh Shivram Tathwade, Jaywant Baburao Bhosale, Rakhmaji Abaji Shindange, Sou. Prabhawati Balaso Mane, Shashikant Madanrao Pisal.
			281/B Part.	800	Private	Sou. Smita Suresh Tathwade, Suresh Shivram Tathwade, Jaywant Baburao Bhosale, Rakhmaji Abaji Shendge, Sou. Prabhawati Balaso Mane, Shashikant Madanrao Pisal.
			403/A Part.	2700	Private	Tijaba Rambhau Mote, Mhatu Rambhau Mote, Gangaram Rambhau Mote, Narayan Rambhau Mote, Rajaram Soma Mote, Balu Soma Mote, Dada Soma Mote, Yashwant Soma Mote, Balu Kondiba Devkate , Dhondiba Kondiba Devkate, Shindu Kondiba Devkate, Gitabai Kondiba Devkate , Other Right, Sundarabai Yedu Pisal, Salabai Appa Thombare, Gojabai Rama Mote. Shirwal Vikas Soccity
			403B Part.	1100	Private	Ravindra Shrivalab Bang, Seema Ravindra Bang.
			432 Part	6900	Private	S.T.L Holding Private Limited Dadasahab Dhodiba Raut,
			469 Part.	2500	Private	Yashwant Ramchandra Navase.
			470 Part	1700	Private	Gajanan Manshingh Ghadge ,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Other Right, Shirwal Vikas Society
			471 Part.	1500	Private	Ms. Shirwal Orignaze Private Limited Sou. Laxmichayya Prakash Kale, Smt. Kusum Dattatraya Kuikarni, Ms. Romeda Chemical Limited Through B.S. Khanolkar, Through Prakash Hariba Kate, Other Right, Prani Pradhan Industries.
			473 Part.	2600	Private	Jagannan Baburao Chavan, Balu Laxman Kadam, Kusum Dattatrya Kulkarni, Satish Dattatraya Kuikarni, Jijaba Sitaram Pawar, Other Right, Murlidhar Dattatrya Kulkarni Vinayak Dattatrya Kulkarni Pramod Dattatrya Kulkarni Satish Dattatraya Kulkarni, Sarojini Bhaskar Pathak, Yogini Madhuk Khardekar, Sneha Madhukar Rajopadhya, Madhavi Ramesh Adkar, Anuradha Avinash Chinchare, Shraddha Arun Pathak, Madhuri Pradip Mokashi.
		(2) Pargaon	35 Part	3900	Private	Shivaji Balu Dhamai , Ramchandra Balu Dhamai, Prakash Baban Dhamai, Vilas Baban Dhamai, Mansingh Bhikoba Bhosale, Ramdas Sampatrao Gadhawe, Tanaji Vitthal Pawar , Suresh Dajiba Gadhawe, Other Rights, Shirish Atmaram Bhagat, Ramchandra Balu Dhamai,
			81 Part	1000	Private	Dajiram Baluram Kadam , Shankar Baburao Kadam. Other Right, Gramin Vikas Society Paragaon
			Nala	1000	Government	Government of Maharashtra
			849 Part	400	Private	Vamanrao Krushna Gulumkar, Dattatraya Krushna Gulumkar, Sahebrao Krushna Gulumkar, Narayan Krushna Gulumkar, Uttam Krushna Gulumkar, Other Right,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Gramin Vikas Society Paragaon
			845 Part	100	Private	Parvati Sarjerao Gulmkar, Thakubai Sarjerao, Rassabai Tukaram Gulmkar, Other Right, Gramin Vikas Society Paragaon Subhadra Mansingh Patane, Kalabai Bhagawan Gaikwad, Shalan Shivaji Gaikwad, Nakusabai Shamrao Mandhare.
			844 Part	100	Private	Nanasaheb Baban Yadav, Shivaji Baban Yadav, Chandrakant Baban Yadav, Ravindra Baban Yadav, Other Right, Gramin Vikas Soceity Pargaon.
			841 Part	100	Private	Nanasaheb Baban Yadav, Shivaji Baban Yadav, Chandrakant Baban Yadav, Ravindra Baban Yadav, Other Right, Gramin Vikas Soceity Pargaon.
			838 Part	100	Private	Parvati Sarjerao, Srasabai and Thakubai, Sarjerao Yadav, Other Right, Subhadra Mansingh Patane, Kalabai Bhagawan Gaikwad, Shalan Shivaji Gaikwad, Nakusabai Shamrao Mandhare.
			835 Part	100	Private	Nanasaheb Baban Yadav, Shivaji Baban Yadav, Chandrakant Baban Yadav, Ravindra Baban Yadav.
			834 Part	100	Private	Bala Genba Gulmkar, Ganpat Genaba Gulmkar, Other Right, Gramin Vikas Soceity Pargaon.
			836 Part	200	Private	Balu Hari Dhamal, Other Right, Gramin Vikas Soceity Pargaon.
			19 Part	300	Private	Local Board , Dharmashala. Gulab Ambumija Pathal.
			21 Part	100	Government	Government of Maharashtra
			22 Part	100	Private	Sindhu Dagadoba Gaikwad, Balaso Bhikoba Gaikwad, Dashrath Bikhoba Gaikwad, Sanjay Vasant Gaikwad, Deepak Vasant Gaikwad, Other Right, Kamlakar Dagdoba Gaikwad, Chatura Shankar Shinde, Suman Vilas Shinde, Sakubai Bikhoba Gaikwad, Shobha Bapurao More,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			24 Part	200	Private	Kusum Vasantrao Gaikwad, Vilas Shankar Pol, Subhash Shankar Pol, Baban Shankar Pol.
			25 Part	100	Private	Kamalakar Dagadoba Gaikwad, Sudhakar Dagadoba Gaikwad, Mohan Dagadoba Gaikwad, Balasaheb Bhikoba Gaikwad, Dashrath Bhikoba Gaikwad, Sanjay Vasantrao Gaikwad, Deepak Vasantrao Gaikwad, Other Right, Shobha Bapurao Mote, Kusum Vasantrao Gaikwad.
			26 Part	100	Private	Santosh Vyankatrao Pawar, Other Rights, Chhayadevi Ashokrao Jadhav, Mayadevi Balasaheb Yadav, Daya Vyankatrao Pawar, Jaya Vyankatrao Pawar.
			29 Part	300	Private	Chandrakant Maruti Raut, Chhabubai Maruti Raut, Kamal Deepak Ubale, Bhupesh Dattatraya Raut, Dinesh Deepak Ubale, Changuja Vilas Bhoj, Santosh Nivruti Ghorpade.
			30 Part	100	Private	Dhamaji Krushnaji Gadhave, Magkul Babumiya Pathan, Mustak Babalal Mulla, Sau. Rahifa Elai Mulla, Hirabai Ramchandra Dhamal, Ratnaprabha Sarjerao Dhamal, Vanita Hanmant Mane, Kautik Dinkar Dhamal, Shankar Kondiba Dhamal, Popatlal Sadashiv Pawar, Shahjada Abbas Patel, Vinay Gulabrao Dhamal, Rashid Magbul Pathan, Sandip Mansingh Pawar, Ashok Mansingh Pawar, Sunita Ravindra Chaudhari, Jawali Sahakari Bank, Mumbai Branch, Panchgani, Tarabai Yashwant Gole, Nirmala Tukaram Gole, Other Right, The Karad Janata Bank, Branch Wai, Wai Gramin Vikas Society Pargaon. Indubai Ramchandra Khopade, Rajshri Vijay Dhamal, Jawali Sahakari Bank Mumbai, Br. Panchgani,
			31 Part	1100	Government	Government of Maharashtra
			32 Part	1200	Private	Hanumant Anandrao Yadav ,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pushpa Jagdishprasad Agarwal, Sahebrao Maruti Dhamal, Mahesh Harishchandra Shinde, Other Right, Baidabai Anand Yadav, Shankar Dhondi Pol, Gramin Vikas Soceity Pargaon, Nanda Shivaji Jagatap.
			33	500	Private	Sahebrao Rambhau Yadav, Vyankat Rambhau Yadav, Kasam Abumiya Pathan, Gulab Abumiya Pathan, Hanumant Anandrao Yadav , Uttam, Sanjay, Shamrao Sarjerao Yadav, Alka Sahebrao Dhamal, Other Rights, Baidabai Anandrao Yadav, Ranjna Sahdev. Gramin Vikas Society Pargaon
			4 Part	1400	Government	Government of Maharashtra
			34 Part	1000	Private	Vyankat Rambhau Yadav, Vamanrao Keshavrao Patil, Hanumant Anandrao Yadav , Vilas Shankar Pol, Himmat Sahebrao, Jaywant Sahebrao Yadav, Subhash Shankar Pol, Baban Shankar Pol, Mayur Sahebrao Dhamal, Praphull Dharmraj Dhamal, Pravin Dharmraj Dhamal, Priyanka Jalindar Pawar, Chhaya Suresh Bhilare, Jalidra Nathuram Pawar Dattatraya Nathuram Pawar, Other Right, Baidabai Anandrao Yadav, Manda Shivaji.
			1418 Part	100	Private	Dnyandeve Tukaram Gulumkar, Sunil Tukaram Gulumkar, Dilip Yadav, Shital, Komal, Sonal, Dilip Yadav , Nanda. Other Right, Pargaon Vikas Society
			1424 Part	100	Private	Krishna Bala Gulumkar, Other Right, Gramin Vikas Soceity Pargaon
			1425 Part	200	Private	Mathurabai Govind Gadhawe, Other Right, Gramin Vikas Soceity Pargaon.
			1426 Part	200	Private	Dharmu Hanumant Gulumkar.
			1431 Part	100	Private	Gangaram Jayappa Yadav, Other Right, Kamal Dadasaheb Damal,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Vimal Nandkumar Pawar, Nirmala Popat Yewale, Shewanta Jayyappa Yadav, Kalabai Namdev Jagtap, Sonabai Shrirang Gaikwad, Hausabai Baban Dhamal.
			1432 Part	100	Private	Namdev Daduram Gulumkar.
			1434 Part	400	Private	Anandrao Khashaba Yadav, Mansingh Khashaba Yadav, Yashwant Khashaba Yadav, Popat Khashaba Yadav, Other Right, Krishnabai Manyaba Pawar, Shantabai Balaso Pawar, Sakharabai Maruti Gadhave. Other Right, Gramin Vikas Society Paragaon
			1435 Part	200	Private	Baburao Vitthal Yadav, Narayan Vitthal Yadav, Chandrabhaga Madhukar Yadav, Rajaram Vitthal Yadav. Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon
			1436 Part	200	Private	Kisan Baburao Yadav, Pandit Baburao Yadav, Vitthal Baburao Yadav. Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon
			1437 Part	200	Private	Tukaram Appaji Gaikwad, Tanaji Tukaram Yadav, Chandrabhaga Ramchandra Pawar, Sharada Baban Ambale, Balkrishna Popat Liman.
			1438 Part	200	Private	Krishna Janu Gulumkar .
			1439 Part	100	Private	Tanaji Tukaram Yadav, Chandrabhaga Ramchandra Pawar, Sharada Baban Ambale, Balkrishna Popat Liman.
			1440 Part	100	Private	Dharmaji Appaji Yadav, Arvind Appaji Yadav, Maruti Appaji Yadav, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1441 Part	100	Private	Nagu Navalu Yadav, Vilas Navalu Yadav.
			1448 Part	100	Private	Balu Bhiku Gulumkar (Yadav).
			1449 Part	100	Private	parvati Sarjerao Yadav, Sarsabai & Thakubai , Father Sarjerao Yadav, Other Right, Subhadra Mansingh Patane, Kalabai Bhagawan Gaikwad.
			1452 Part	100	Private	Satara District Cooperative Margis Bank Limited Karad Other Right, Sindram Daulati Gulumkar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1453 Part	100	Private	Subhedar Tukaram Yadav, Shrawan Jaisingh Aawade, Shamrao Baban Yadav, Ramdas Baban Yadav, Nivrutti Baburao Yadav, Bank Of Baroda, Khandala , Other Right, Pargaon Vikas Society, Sangita Baban Yadav, Chaya Baban Yadav, Jagubai Baban Yadav.
			913 Part	100	Private	The Maharashtra State Cooperative Land Development Bank Limited, Sub-branch Khandala, Other Right, Haribai bahu Dhamal, Pargaon Vikas Society.
			912 Part	100	Private	Dharmaji Appaji Yadav, Arvind Appaji Yadav, Maruti Appaji Yadav, Other Rights, Pargaon Vikas Society.
			911 Part	200	Private	Vitthal Haibati Dhamal, Laxman Haibati Dhamal,
			909 Part	400	Private	Babu Hari Dhamal, Rajendra Balasao Yadav Brahmanand Sahabrao Wadh Ankush Mansingh Dhamal Basant Pandurang Popale Namdev Baburao Jadhav Sulochana Gulabrao Bhosale Chaya Kishan Gadhave Mira Arvind Bhosle Vandana Dattatya Khamkar Parvati Baburao Jadhav Usha Namdev Jadhav Shaila Jitendraa Bhosle Dinkar Sahadu Jadhav Dada Baburao Dhayagude Shivaji Dinkar Dhayagude Balu Dinkar Kadam Sunil Subedar Gagtap Mahendra Subedar Gagtap Swati Satish Deshmukh Maulana Abdul Kher Aasha Ankush Gaikwad Nilesh Balasao Yadav Vaishali Gridhar Bhosle Rupali Balasao Yadav Sunita Balasao Yadav Ajay Balajirao Patil Mohamad Indris Ansari.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			908 Part	200	Private	Kalu Krishna Khopade,
			906 Part	200	Private	Babu Hari Dhamal,
			903 Part	200	Private	Ashok Ramchandra Dhamal, Arvind Ramchandra Dhamal, Sunil Ramchandra Dhamal, Other Rights, Pargaon Vikas Society.
			901 Part	200	Private	Pandurang Shankar Dhamal, Ramdas Shankar Dhamal, Other Rights, Pargaon Vikas Society,
			900 Part	200	Private	Maruti Dinkar Dhamal, The Maharashtra State Cooperative Land Development Bank Limited, Sub-branch Khandala, Other Rights, Pargaon Vikas Society, Dharmaji Oinkar Damal.
			897 Part	100	Private	Baban Maruti Dhamal, Other Rights, Pargaon Vikas Society.
			896 Part	100	Private	Mahadev Waman Dhamal, Subhash Waman Dhamal, Vilas Waman Dhamal, Jaisingh Waman Dhamal, Other Right, Gramin Vikas Society Paragaon
			895 Part	200	Private	Sarjerao Shankar Yadav, Maharashtra State Sahakari & Gramin Vikas Bank, Satara, Other Right, Arvind Shankar Yadav.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			894 Part	200	Private	Anandrao Sahebrao Dhamal, Ganpat Sahebrao Dhamal , Pralhad Sahebrao Dhamal.
			892 Part	200	Private	Maruti Tukaram Rithe, Other Right, Gramin Vikas Society Paragaon
			891 Part	300	Private	Mahadu Yadu Rithe, Subhedar Shankar Gaikwad, Baban Shankar Gaikwad, Sonubai Shankar Gaikwad, Ashok Baburao Gaikwad, Ramchandra Baburao Gaikwad, Other Right, Sundarabai Shankar Chavan, Girijabai Bapurao Gaikwad, Hirabai Anna Bobade.
			889Part	200	Private	Yadu Sambhaji Dhamal, Uttam Sambhaji Dhamal, Shivaji Sambhaji Dhamal.
			887Part	200	Private	Nathu Jagannath Dhamal , Dattu Jagannath Dhamal, Ankush Dadasaheb Dhamal, The Maharashtra State sahakari , Agricultural ,& Gramin Vikas Bank Mumbai Branch Satara, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon. Dilip Jagannath Dhamal, Narayan Dadaso Dhamal, Sakhubai Balaso Dhamal, Surekha Ankush Rangole, Sunita Ramdas Chavan, Pushpa Ashok Khandagale, Bharati Balaso Chavan.
			884Part	100	Private	Ramchandra Bala Rithe, Ahilya Krishnaji Gaikwad, Bhanudas Aabaji Gaikwad, Vishwas Aabaji Gaikwad, Asha Subhedar Jagtap, Aruna Mahadev Jagtap, Rukmini Aabaji Gaikwad, Manoj Krishnaji Gaikwad , Shital Krishnaji Gaikwad , Shashikant Krishnaji Gaikwad, Kirti Krishnaji Gaikwad,
			883Part	200	Private	Anandrao Sahebrao Dhamal, Ganpat Sahebrao Dhamal , Pralhad Sahebrao Dhamal.
			880Part	200	Private	The Maharashtra State Cooperative Land Development Bank Limited, Sub-branch Mumbai,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Bharati Shivram Dhamal, Other Right, Gramin Vikas Society Paragaon Mansingh Shivraj Dhamal, Bharat Shivram Dhamal.
			876Part	200	Private	Mahadev Waman Dhamal, Subhash Waman Dhamal, Vilas Waman Dhamal, Jaisingh Waman Dhamal.
			874Part	100	Private	Baban Maruti Dhamal, Ashok Ramchandra Dhamal, Sadashiv Shripati Dhamal, Babu Hari Dhamal, Chamaji Genu Rithe, Nivrutti Chimaji Rithe, Bhagawan Sadashiv Rithe, Genba Chimaji Rithe, Vitthal Haibati Dhamal, Laxman Haibati Dhamal, Sachin Shivaji Gaikwad , Ratna Shivaji Gaikwad, Suvarna Shivaji Gaikwad, Yamuna Shivaji Gaikwad, Nathu Jagannath Dhamal , Dattu Jagannath Dhamal, Dilip Jagannath Dhamal, Anandrao Sahebrao Dhamal, Ganpat Sahebrao Dhamal , Pralhad Sahebrao Dhamal, Bharat Shivram Dhamal, Mansingh Sahebrao Dhamal, Yadu Rabbhaji Dhamal, Shivaji Rabbhaji Dhamal, Uttam Rabbhaji Dhamal, Baban Maruti Dhamal, Arvind Ramchandra Dhamal, Sunil Ramchandra Dhamal, Ankush Dadaso Dhamal, Tanaji Maruti Gaikwad, Arvind Maruti Gaikwad, Other Right, Jaswandibai Rambhau Gole, Taibai Sahebrao Yadav, Pargaon Vikas Society, Narayan Dadaso Dhamal, Sakhubai Balaso Dhamal, Surekha Ankush Rangole, Pushpa Ashok Khandagale, Sunita Ramdas Chavan, Bharati Balaso Chavan.
			870 Part	200	Private	Nathu Jagannath Dhamal , Dattu Jagannath Dhamal, The Maharashtra State sahakari , Agricultural , & Gramin Vikas Bank Mumbai Branch Satara, Ankush Dadaso Dhamal,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Other Right, Dilip Jagannath Dhamal, Narayan Dadaso Dhamal, Sakhubai Balaso Dhamal, Surekha Ankush Rangole, Pushpa Ashok Khandagale, Sunita Ramdas Chavan, Bharati Balaso Chavan.
			869 Part	300	Private	Ramchandra Bala Rithe, Ahilya Krishna Gaikwad, Dy. Director of Resettlement Collector Satara, Other Right, Krishna Aabaji Gaikwad, Bhanudas Aabaji Gaikwad, Vishwas Aabaji Gaikwad, Asha Subhedar Jagtap, Aruna Mahadeo Jagtap, Rukmini A Gaikwad, Manoj Ki Gaikwad , Shashikant K Gaikwad, Kirthi K. Gaikwad.
			866 Part	200	Private	Ramchandra Anandrao Yadav, Laxman Anandrao Yadav, Sopan Anandrao Yadav, Other Right, Pargaon Vikas Society.
			865 Part	100	Private	Ranjana Hanmant Yadav, The Maharashtra State Sahakari , Agricultural , & Gramin Vikas Bank , Satara, Other Right, Jaiwant Yadu Yadav.
			863Part	200	Private	Mahadev Waman Dhamal, Subhash Waman Dhamal, Vilas Waman Dhamal, Jaisingh Waman Dhamal.
			860Part	100	Private	Krishna Bala Gulumkar, Sarjerao Daduram Gulumkar, Ramchandra Anandrao Yadav, Laxmanrao Anandrao Yadav, Sopan Anandrao Yadav, Bajirao Yadu Yadav, Ganpat Yadu Yadav.
			850 Part	300	Private	Ramchandra Gangaram Rithe, Laxmanrao Gangaram Rithe.
			937 Part	100	Private	Vitthal Daduram Yadav, Shevanta Sarjerao Mahagare, Sulabai Dattu Dudhane, Janabai Dhondiba Gole, Other Right, Pargaon Vikas Society
			939 Part	100	Private	Mahadu Sadu Rithe, Subhedar Shankar Gaikwad, Baban Shankar Gaikwad, Sonubai Shankar Gaikwad,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Ramchandra Baburao Gaikwad, Ashok Bapurao Gaikwad, Other Right, Hirabai Anna Bobade, Sundarabai Shankar Chavan, Girijabai Bapurao Gaikwad.
			940 Part	100	Government	Government of Maharashtra
			950 Part	1500	Private	Shankar Shripati Dhamal, Dinkar Shripati Dhamal, Balkrishna Shripati Dhamal, Aba Krishna Bhosale, Narayan Dhondiba Rithe, Sadashiv Shripati Dhamal, Vyankat Bala Patil, Namdev Sawala Rithe, Vyankat Sawala Rithe, Anada Sawala Rithe, Vitthal Bala Patil, Pandurang Bala Patil, Narayan Bala Patil, Ramchandra Krishnaji Bhosale, Ranoji Krishnaji Bhosale, Shivaji Rambhau Yadav, Ramchandra Bapurao Gaikwad, Ashok Bapurao Gaikwad, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon, Sundarabai Shankar Chavan, Girijabai Bapurao Gaikwad.
			949	800	Government	Government of Maharashtra
			951 Part	100	Private	Narayan Dhondiba Rithe.
			952 Part	700	Private	Aba Krishna Bhosale, Narayan Dhondiba Rithe, Vyankat Balawant Patil, Vitthal Bala Patil, Pandurang Bala Patil, Narayan Bala Patil, Ramchandra Krishnaji Bhosale, Ranoji Krishnaji Bhosale, Mahadev Waman Dhamal, Subhash Waman Dhamal, Vilas Waman Dhamal, Jaysingh Waman Dhamal, Shivaji Rambhau Yadav, Anadarao Sawala Rithe, Namdev Sawala Rithe, Ramchandra Bapurao Gaikwad, Ashok Bapurao Gaikwad, Vishwas Gaikwad, Other Right, Changunabai Krisha Yadav, Krishnabai Mahadev Bhilare, Anusaya Shripati Jaygude, Parvati Sitaram Chavhan, Rangubai Shrirang Chavhan , Sitabai Dnyanoba Jadhav,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Babai Baban Jadhav, Sundarabai Shankar Chavan, Girijabai Bapurao Gaikwad, Shantaram Vyankat Gaikwad, Shankar Vyankatrao Gaikwad, Sunanda Bhagwan Jadhav, Thakubai Vyankatrao Gaikwad.
			Road	500	Government	Government of Maharashtra
			Nala	500	Government	Government of Maharashtra
			1389 Part	100	Private	Babaso Tayaji Rithe, Aabaso Tayaji Rithe.
			1390 Part	100	Private	Anandrao Sawala Rithe, Namdev Sawala Rithe, Vishwas Vyankat Gaikwad, Other Right, Shantaram Vyankat Gaikwad, Shankar Vyankatrao Gaikwad, Sunanda Vyankat Gaikwad, Thakubai Vyankat Gaikwad, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1381 Part	100	Private	Maruti Ganapati Gaikwad.
			1392 Part	100	Private	Narayan Dhondiba Rithe, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1393 Part	100	Private	Govind Ganapati Gulumkar, Sopan Ganapati Gulumkar, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1394 Part	300	Private	Chandrakant Maruti Rithe alias Gaikwad
			1395 Part	100	Private	Kalika Engineering And Strige Limited Director Ramchandra Anandrao Jagtap, Sitabai Gurunagraj Kapate, Other Right, Ganpati Shripati Gulumkar.
			1396 Part	100	Private	Dharmraj Jayram Pawar, Kisan Jayram Pawar.
			1397 Part	100	Private	Ashok Ramchandra Dhamal, Arvind Ramchandra Dhamal, Sunil Ramchandra Dhamal.
			1398 Part	100	Private	Mahadev Waman Dhamal, Subhash Waman Dhamal, Vilas Waman Dhamal, Jaysingh Waman Dhamal.
			1400 Part	100	Private	Nivrutti Dinkar Dhamal, Maruti Dinkar Dhamal, Dnyanoba Dinkar Dhamal, Dharmaji Dinkar Dhamal.
			1401 Part	400	Private	Aba Krishna Bhosale, Ranoji Krishnaji Bhosale.
			1402 Part	200	Private	Popat Mahadev Rithe, Babasaheb Mahadev Rithe, Other Right, Malan Sudam Bhosale, Anusaya Mahadev Rithe.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1403 Part	200	Private	Dattatray Dhondiba Gaikwad, Rajendra Dhondiba Gaikwad, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon, Anandrao Maruti Gaikwad, Shalan Vitthal Ubarkar, Dwarkanbai Dhondiba Gaikwad.
			1404 Part	200	Private	Sadashiv Yadavrao Gaikwad, Suresh Yadavrao Gaikwad, Ashok Yadavrao Gaikwad, Other Right, Lilabai Gangaram Pawar, Sulochana Rajan Bhosale, Janabai Yadavrao Gaikwad.
			1406 Part	100	Private	Ramchandra Bala Rithe, Aahilya Krishnaji Gaikwad, Other Right, Vikas Society Pargaon, Rukmini Aabaji Gaikwad, Rani Aabaji Gaikwad, Bhanudas Aabaji Gaikwad, Vishwas Aabaji Gaikwad, Asha Subhedar Jagtap, Aruna Aabaji r Jagtap, Manoj Krishnaji Gaikwad , Shital Krishnaji Gaikwad , Shashikant Krishnaji Gaikwad, Kirti Krishnaji Gaikwad.
			1407 Part	100	Private	Dilip Vitthal Gaikwad.
			1408 Part	100	Private	Tukaram Anandrao Rithe, Sitaram Anandrao Rithe.
			1409 Part	200	Private	Kisan Ravba Gaikwad, Other Right, Yashodabai Gulabrao Pawar, Dagadabai Khashaba Jadhav, Sulabai Digambar Bhilare, Nakusabai Sahebrao Bhargude, Phulabai Mahadev Bhuite, Subhadrabai Bhausaheb Dhamal, Sakhubai Dinakar Mahagare, Bank of Badoda.
			1410 Part	100	Private	Mamanu Appaji Gaikwad, Tukaram Appaji Gaikwad, Bhimchand Appaji Gaikwad, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1411 Part	300	Private	Chimaji Genu Rithe, Nivrutti Chimaji Dhamal, Bhagawan Sadashiv Rithe, Nivrutti Chimaji Rithe, Genaba Chimaji Rithe, Sachin, Ratna , Suvarna, Yamuna, Shivaji Gaikwad, Tanaji Maruti Gaikwad, Arvind Maruti Gaikwad, Other Right,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Gramin Vikas Society Pargaon,
			1412 Part	100	Private	Nagesh Vitthal Gaikwad, Madhukar Vitthal Gaikwad, Vishnu Vitthal Gaikwad, Shivaji Vitthal Gaikwad.
			1413 Part	100	Private	Kamalakar Dagdoba Gaikwad, Sudhakar Dagdoba Gaikwad, Mohan Dagadoba Gaikwad, Balasaheb Bhikoba Gaikwad, Dashrath Bhikoba Gaikwad, Sanjay Vasantao Gaikwad, Deepak Vasantao Gaikwad, Other Right, Shobha Bapurao More, Kusum Vasantao Gaikwad.
			1414 Part	100	Private	Mansingh Rajaram Rithe, Bajirao Krishna Gaikwad, Rajaram Laxman Jaygude.
			1415 Part	300	Private	Narayan Govind Gulumkar, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1416 Part	300	Private	Jaywant Balkrishna Yadav, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon, Laxmibai Balasaheb Gadhave, Krishnabai Prabhakar Chavan , Sarubai Shivram Yadav, Santhosh, Sandip, Mangal, Balkrishna Yadav, Subhadrabai Balkrishna Yadav,
			1417 Part	600	Private	Ashok Shankarrao Yadav, Baburao Shankarrao Yadav, Shivling Shankarrao Yadav, Bhagawan Shankarrao Yadav, Hindurao Dinkarrao Yadav, Tanaji Dinlarrao Yadav.
			1046 Part	200	Private	Kondiba Ganpat Dhamal.
			1043 Part	200	Private	Chamiji Genu Rithe, Nivrutti Chimaji Rithe, Bhagawan Sadashiv Rithe, Genba Chimaji Rithe, Sachin, Ratna, Suvrna , Yamuna, Shivaji Gaikwad, Tanaji Maruti Gaikwad, Arvind Maruti Gaikwad.
			1038 Part	400	Private	Ganesh Ankush Rithe alias Gaikwad, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon, Mohan, Suresh, Ankush Rithe.
			1040 Part	200	Private	Bai Vasantao Pawar.
			1042 Part	200	Private	Mamtu Appaji Gaikwad, Tukaram Appaji Gaikwad, Bhimchand Appaji Gaikwad, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1037 Part	400	Private	Ramchandra Gangaram Rithe,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Laxman Gangaram Rithe.
			1031 Part	200	Private	Ramchandra Bala Rithe, Ahilya Krishnaji Gaikwad, Other Rights, Rukmini Abaji Gaikwad, Bhanudas Abaji Gaikwad, Vishwas Abaji Gaikwad, Asha Subhedar Jagtap, Aruna Mahadev Jagtap, Manoj Krishnaji Gaikwad, Shital Krishnaji Gaikwad, Shashikant Krishnaji Gaikwad, Kirti Krishnaji Gaikwad,
			1033 Part	100	Private	Dharmu Balu Pawar, Ramchandra Balu Pawar.
			1030 Part	3500	Private	Sayabu Narayan Gulumkar, Pradip Nivrutti Dhamal, Vikram Nivrutti Dhamal, Other Rights, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1021 Part	100	Private	Chimaji Genu Rithe, Nivrutti Chimaji Rithe, Bhagawan Sadashiv Rithe, Genba Chimaji Rithe, Shivaji Chimaji Rithe, Tanaji Maruti Gaikwad, Arvind Maruti Gaikwad.
			1018 Part	100	Private	Dattatraya Dhondiba Gaikwad, Rajendra Dhondiba Gaikwad, Other Rights, Gramin Vikas Society Pargaon, Anandrao Maruti Gaikwad, Shalan V Borkar, Dwarkabai Dhondiba Gaikwad.
			1017 Part	100	Private	Popat Mahadev Rithe, Babasaheb Mahadev Rithe, Anusaya, Other Right, Malan Sudam Bhosale Anusaya Mahadev Rithe.
			1016 Part	100	Private	Sadashiv Yadavrao Gaikwad, Suresh Yadavrao Gaikwad, Ashok Yadavrao Gaikwad, Other Right, Lilabai Gangaram Pawar, Sulochana Rajan Bhosale, Janabai Yadavrao Gaikwad.
			1015 Part	400	Private	Shivaji Ramchandra Yadav, Bhagawan Ramchandra Yadav, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1014 Part	200	Private	Shivaji Ramchandra Yadav, Vitthal Ramchandra Yadav, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1013 Part	200	Private	Vitthal Ramchandra Yadav,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon,
			1012 Part	200	Private	Vitthal Ramchandra Yadav, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1010 Part	700	Private	Ramchandra Krushnaji Bhosale, Maharashtra State Cooperative Agricultural Gramin Vikas Bank Limited Mumbai Branch Lonand.
			1009 Part	200	Private	Shankar Yadu Gaikwad, Jagannath Yadu Gaikwad, Vitthal Yadu Gaikwad, Dattatraya Yadu Gaikwad, Vijay Yadu Gaikwad.
			1008 Part	200	Private	Narayan Dhondiba Rithe,
			1007 Part	200	Private	Babasaheb Tayaji Rithe, Abaji Tayaji Rithe.
			1006 Part	100	Private	Nana Ganpati Rithe, Khashaba Vishnu Rithe, Chandrakant Piraji Gaikwad, Other Right, Vasant Pilaji Gaikwad, Jayashri Pilaji Gaikwad, Sindhu Pilaji Gaikwad, Indubai Pilaji Gaikwad.
			1005 Part	200	Private	Vyankat Balwant Patil, Vitthal Bala Patil, Pandurang Bala Patil, Narayan Bala Patil.
			1026 Part	900	Private	Nagesh Vitthal Gaikwad, Madhukar Vitthal Gaikwad, Vishnu Vitthal Gaikwad, Shivaji Vitthal Gaikwad, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon.
			Road	100	Government	Government of Maharashtra
			941Part	200	Private	Aaba Krishna Bhosale, Vyankat Bala Patil, Chandrakant Maruti Rithe / Gaiwkad, Shankar Dinkar Baikrishna, Sadashiv Shripati Dhamal, Vitthal Balawant Patil, Pandurang Balawant Patil, Narayan Balawant Patil, Ramchandra Krishnaji Bhosle, Ranoji Krishnaji Bhosle, Shivaji Rambhau Yadav, Vitthal Dadurao Yadav, Dharmraj Jayram Pawar, Kisan Jayram Pawar, Ramchandra Baburao Gaikwad, Ashok Bapurao Gaikwad, Shewanta Sarjerao Mahangare, Sulabai Dattu Dudhane, Janabai Dhondiram Gole, Other Rights,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sundrabai Shankar Chavhan, Girijabai Bapurao Gaikwad.
			1075 Part	3100	Private	Mansingh Tukaram Rithe, Balu Maruti Gaikwad, Dnyanoba Maruti Gaikwad, Jaysingh Maruti Gaikwad, Dattu Maruti Gaikwad, Part
			1074 Part	2200	Private	Nana Ganpati Rithe, Khashaba Vishnu Rithe, Chandrakant Piraji Gaikwad, Other Right, Vasant Pilaji Gaikwad, Jayshree Pilaji Gaikwad, Sindhu Pilaji Gaikwad, Indubai Pilaji Gaikwad.
			1070 Part	500	Private	Kalu Krishna Khopade.
			1069 Part	100	Private	Santoshkumar Bhagwan Rithe, Other Right, Ganpati Shripati Yadav, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1048 Part	100	Private	Kalu Krishna Khopade.
			1047 Part	400	Private	Kondiram Ganpati Dhamal, Other Right, Chandrabhaga Ganpati Dhamal, Suman Ganpati Dhamal, Sita Rajaram Dhayate, Bank of Baroda.
			857 Part	6100	Private	Ramchandra Bala Rithe, Ashok Ramchandra Dhamal, Nathu Jagannath Dhamal, Dattu Jagannath Dhamal, Dilip Jagannath Dhamal, Anandrao Sahebrao Dhamal, Ganapati Sahebrao Dhamal, Pralhad Sahebrao Dhamal, Vitthal Haibati Dhamal, Laxman Haibati Dhamal, Bharat Shivram Dhamal, Mansingh Shivram Dhamal, Ashok Vaman Dhamal, Subhash Vaman Dhamal, Vilas Vaman Dhamal, Jaysingh Vaman Dhamal, Ganesh Ankush Rithe, Arvind Ramchandra Dhamal, Sunil Ramchandra Dhamal, Ankush Dadasaheb Dhamal, Other Right, Mohan Rithe, Surendra Rithe, Ankush Rithe, Narayan Dadasaheb Dhamal, Sakhubai Dadasaheb Dhamal, Surekha Ankush Rangole, Pushpa Ashok Khandagale,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sunita Ramdas Chavan, Bharati Balasaheb Chavan.
			789 Part	1500	Private	Tanaji Gulabrao Yadav, Suresh Gulabrao Yadav, Sadashiv Gulabrao Yadav, Sakharabai Gulabrao Yadav, Shalan Mansingh Yadav, Krishnabai Gulabrao Yadav, Other Right, Gramin Vikas Society Pargaon.
			1183 Part	2000	Private	Kisan Raoba Gaikwad, Other Right, Yashodabai Gulabrao Pawar, Dagadabai Khashaba Jadhav, Sulabai Digambar Bhilare, Nakusabai Sahebrao Bhargude, Phulabai Mahadev Bhuite, Subhadra Bhausaheb Dhamal, Sakhubai Dinakar Mahagare.
		(3) Kasbe Majare Shirwal	326/1 Part	11575	Private	Babasaheb Ramu Mote, Shrirang Ramu Mote, Arvind Abaji Mote, Krishna Aba Mote, Baba Rama Taliwar, Krishna Aka Mote, Baba Balu Pise, Maruti Balu Pise, Salu Balu Pise, Sampat Balu Pise, Malhari Janaku Pise, Yesu Ghosu Kale, Mahadu Bhiva Shendge, Balu Babu Pisal, Dinkar Dhondi Jankar, Malu Dhondi Mote, Dadu Dhondi Mote, Dagdu Shidu Shinde, Ganpati Krishna Mote, Dada Baburao Mote, Mahadu Bapu Mote, Savala Thaku Mote, Raghu Bhagu Mote, Shivram Aba Mote, Balkrishna Subanna Shetti, Govind Harichandra Agrawal, Narayan Mahadev Pawar, Kondi Sadu Pisal, Soma Sadu Mote Balu Vitthu Mote Sakharam Vithu Mote Laxman Ramu Mote Tukaram Gujaba Mote Narayan Krishna Mote Namdev Baji Mote, Chandrakant Raghu Mote,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p> Aba Krishna Mote, Ananda Jana Mote, Soma Aba Mote, Khandu Thaku Taliwar, Purushottam Bansilal Rathi, Somnath Bankatlal Rathi, Vijay Shivdas Rathi, Shriram Shankarlal Rathi, Sampatlal Shankarlal Rathi, Bapu Aba Keskar, Shivram Hiru Keskar, Jijaba Ramu Mote, Kodi Tukaram Devkate, Krishna Shankar Kale, Soma Sanju Mote, Bhagu Ghosu Kale, Bhau Satu Kale, Sadu Ghosu Kale, Maruti Bapu Taliwar, Yadu Bapu Mote, Mrs Vatsala Raghunath Jagtap, Mrs Sushila Shivram Arara, Chhaya Shantaram Jamdade, Achut Kashinath Deshpande, Dattatray Govind Kuikarni, Kusum Dattatray Kulkarni, Satish Dattatray Kuikarni, Jaywant Shankar Kadaile, Shanta Ananta Modbidri, Manikrao Narayan Kadaile, Sampat Anandrao Jagtap, Kisan Sarjerao Liman, Ashok Jagannath Malwade, Chandrakant Kashinath Vedpathak, Hirabai Dinkar Raut, Narayan Devba Dagde, Muktabai Nanasaheb Bhujbal, Shivaji Aabaji Mote, Antarlal Ranga Marwadi, Suresh Gokul Marwadi, Vasant Shankar Bhosale, Rahimat Tulla Amanulla Pathan, Shamiulla Amanulla Pathan, Laxmi Chhaya Prakash Kale, Namdev Bhikoba Jadhav, Vitthal Bhikoba Jadhav, Santosh Suryakant Sargar, Keshav Dattatraya Uttarkar, Vitthal Bajaba Mahagade, Sandip Chhagan Marwadi, Other Right, Dnyandeep Cooperative Society, Sushila Nimraj Aaras Manikrao Narayan Kadaile, Bhanudas Ramchandra Jamdade, </p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						The Karad Janta Cooperative Bank Limited Branch Karad, Wai. Shrimant Malojirao Cooperative Bank Limited, Phaltan. Vasant Shankar Bhosale,
			326/2 Part	3030	Private	Maharashtra State Electricity Board
			315 Part	48	Private	Tukaram Namdev Shinde, Smt. Putalabai Nivrutti Shinde, Tukaram Dhondiba Vaikunde, Mangal Bapurao Vaikunde
			319 Part	1210	Private	Jyotiba Dev Vahiwardar,
			323 Part	1275	Private	Yadav Engineering Works, Partner Alord Industries Limited Plastic Division Lalbahadur Ram Yadav Agriclia Produkt Market Camiti G142Gapatrao Sopanrao Kadam
			324 Part	675	Private	Yadav Engineering Works, Partner Alord Industries Limited Plastic Division Lalbahadur Ram Yadav Krushi Bazar Samiti Gapatrao Sopanrao Kadam
			325 Part	838.5	Private	Yadav Engineering Works, Partner Alord Industries Limited Plastic Division Lalbahadur Ram Yadav Krushi Bazar Samiti Ganpatrao Sopanrao Kadam
			339 Part	25	Private	Dinkar Dhaku Kamble, Jijabai Rau Kamble, Shankar Bahiru Kamble, Nivrutti Namdev Kamble, Sampat Baban Kamble, Nagu Khandu Jadhav
			340 Part	224	Private	Kondiba Genba Jadhav,
			341 Part	296	Private	Janardan Babanrao Raut, Vijay Babanrao Raut , Other Right, Muktabai Babanrao Raut
			342 Part	1100	Private	Laxman Rao Kamble, Shankar Kondiba Raut
			343 Part	504	Private	Nivrutti Namdev Kamble, Other Right, Khanu Vittu Jadhav
			344 Part	6270	Private	Krishnarao Sadashiv Deshmukh, Sambhaji Sadashiv Deshmukh, Shankar Sadashiv Deshmukh, Laxman Dhondiba Dere, Suman Dnyanoba Deshmukh, Dattu Vishnu Kuchekar, Digamber Vishnu Kuchekar, Dnyaneshwar Keshav Mandhare, Laxmibai Ganpat Mandhare, Chandrakant Narayan Jamdade, Mahadev Narayan Jamdade,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sanjay Narayan Jamdade, Ranjana Digambar Kuchekar, Shivaji Shankar Deshmukh, Rajendra Krishnarao Deshmukh, Pramod Krishnarao Deshmukh Shobha Chandrarhar Mane, Digabar Vishnu Kuchekar, Usha Anil Thigale, Rekha Ankush Mukhekar, Ramdas Bajirao Nevase, Dilip Vitthal Raut, Suman Dnyanoba Deshmukh, Lata Suryajirao Deshmukh, Vitthal Sambhaji Raut, Chandrakant Narayan Jamdade, Bhimrao Savaalaram Shinde, Dilip Bhimrao Shinde, Leelabai Bhimrao Shinde, Mrs Shantabai Narayan Raut, Mrs Suman Mahadev Raut, Mrs Ujjwala Sanjay Raut, Sushil R Nivutival, M/s. Fair Lance Stud Farms Private Limited, Other Right, Rajendra Dnyanoba Deshmukh, Madhukar Dnyanoba Deshmukh, Baby Dnyanoba Deshmukh, Bharatiya State Bank Shirval
			399 Part	400	Private	Dharmshalai
			1399 Part	432	Private	Sampat Baban Kamble, Other Right, Bandu Yasin Shaikh
			348 Part	1500	Private	Ramchandra Santram Raut, Laxman Santram Raut, Arvind Santram Raut, Anandram Santram Raut
			350 Part	1920	Private	Kisan Dhondiba Jamdade , Kundalik Narayan Jamdade, Chandrakant Narayan Jamdade, Mahadev Narayan Jamdade, Sanjay Narayan Jamdade, Bhaichandra Namdev Uttarkar, Vinayak Namdev Uttarkar, Prashant Dnyaneshwar Dhongde, Sadhana Dnyaneshwar Dhongde, Kantilal Nemchand Doshi
			351 Part	105	Private	Bashirkhan Chandkhan Pathan, Mrs Shamsunnisa Iqbal Patel, Other Right, Shirval Vikas Society,
			353 Part	855	Private	Mrs Shamsunnisa Iqbal Patel, Shivaji Hanumant Jadhav, Ishwar Tatyaba Jadhav, Baikrishna Dattatray Pawar, Bashirkhan Chandkhan Pathan,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Jayashri Chandrakant Pawar, Pandurang Mahadev Rangole, Hari Mahadev Rangole, Dnyaneshwar Mahadev Rangole, Ramakant Mahadev Rangole, Kalpana Shankar Dhumal, Maruti Baburao Karke, Other Right, Shirwal Vikas Society.
			354 Part	210	Private	Dashrath Kondiba Kadam, Ganpatrao Sopan Kadam, Sampat Ganpatrao Kadam, Kalyan Ganpatrao Kadam, Sandip Dashrath Kadam, Other Right, Bank of India, Shirwal
			355 Part	855	Private	Mahaveer Trading Company Rahul Sharad Shaha
			360 Part	600	Private	Maruti Sakharam Khopade, Sharad Appasaheb Pawar
			361 Part	330	Private	Narayan Ramchandra Jadhav, Dnyanoba Ramchandra Jadhav, Kundalik Ramchandra Jadhav, Mahadev Ramchandra Jadhav
			362 Part	375	Private	Vijaykumar Vamanrao Kubhar Other Right, Nira Nagari Sahakari Patapedhi Ltd
			376 Part	1440	Private	The Bombay State Road Transport Corporation
			398 Part	750	Private	Baby /Sunanda Dynandev Shinde, Akshay Cooperative Housing Society Promoter Sudam Ganpati Doiphode, Ramdas Shankar Doeophode, Shirish Shriram Tambe, Deepak Vallabhdas Gujar, Pramod Valiabhdas Gujar, Najama Inambhai Bagwan, Hindurao Marutrao Dhamal, Balkrishna Bhausahab Chavan, Dnyaneshwar Raghunath Sankpal, Subhadrabai Sopan Bargude, Balkrishna Shripati Tambe, Tukaram Vaman Chavan, Vitthal Vaman Chavan, Maruti Vaman Chavan, Kondiba Ganpat Taru, Murlidhar Ganpat Taru, Shankar Sitaram Doiphode, Rafiq Shamshuddin Khan Mrs Prabhavati Dharmaji Bhosale, Other Right, Anita Vallabhdas Gujar, Kusum Vallabhdas Gujar,
			400 Part	375	Private	Mrs Sujata Madhukar Kamble, Mrs Rekha Mukund Phatak,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Jayant Laxman Mane, Balasaheb Shetiba Pawar, Appasaheb Anandrao Deshmukh, Putalabai Shankarrao Deshmukh, Devkant Rangnath Kulkarni, Dr Ajit Madhav Kadam, Umadevi Govind Prasad Agrawal, Dr Mrs Lata Ajit Kadam, Bhaskar Shridhar Phete, Bharat Pandurang Dongare, Sunita Sudhakar Taru, Anandrao Dagdoba Gholap, Rajaram Chimaji Karale, Vikram Appasaheb Deshmukh, Sangram Appasaheb Deshmukh, Dilip Balkrishna Dabhole, Mrs Sujata Madhukar Kamble, Hariprasad Dahyabhai Joshi, Dnyan Prabodhini Medical Trust Pune, Sachin Sharad Gahrdhi, Isak Gulabbhai Shaikh, Dr. Rajendra Gajanan Deshmukh, Dr. Dipa Rajendra Deshmukh, Shivaji Nanasaheb Deshmukh, Other Right, Sirval Gramin Vikas Society, The Wai Urban Cooperative Bank Limited Wai
			1398 Part	1654	Private	The Bombay State Road Transport Corporation
			1298 Part	1389	Private	Pushpashil Janardan Deshpande, Vivek Janardan Deshpande, Mrs Suhas Vivek Deshpande, Sonia Vivek Deshpande, Chanda Vivek Deshpande
			1299 Part	900	Private	Kaliindi Yuvraj Papai, Murlidhar Yadu Kabule, Vijaykumar Yadav Papai, Other Right, Jijabai Dhondiba Tambe
			1300 Part	336	Private	Popat Mahadev Kabule, Pandurang Mahadev Kabule, Sopan Mahadev Kabule, Other Right, Vimal Baban Bhilare, Kamai Damodar Mahangare, Laxmibai Mahadev Kabule
			1301 Part	420	Private	Mrs Shila Vinay Jogalekar, Vinay Mukund Joglekar, Rohidas Shankarrao Margaje, Dattatray Ganpatrao Raut, Laxman Eknath Chandwadkar, Haribhau Bayaji Shinde, Rajaram Sambhaji Rane, Sambhaji Shivaji Bhosale
			1302 Part	280	Private	Mrs Shila Vinay Jogalekar,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Rajendra Narayan Raut, Rajesh Ramdas Bhujbal, Pandurang Tukaram Kabule, Dattatray Tukaram Kabule, Parvati Tukaram Kabule, Suman Vasant Rao Kate, Ganesh Vasant Rao Kate, Nutan Abhang Dongare, Prabhavati Prakash Kate, Sandesh Prakash Kate, Other Right, Purushottam Narayan Raut, Sunita Subhash Bankar, Sugita Narayan Raut, Sonabai Narayan Raut
			1303 Part	420	Private	Omkar Vinay Joglekar, Mugdha Vinay Joglekar, Shila Vinay Jogalekar, Vilas Tukaram More, Shankar Jagannath Kabule, Nivrutti Jagannath Kabule, Sadashiv Jagannath Kabule, Rukhmini Navnath Bhargude, Dnyaneshwar Govind Taru, Other Right, State Bank of India, Shirwal, The Wai Urban Cooperative Bank Limited, Wai
			1304 Part	280	Private	Rajaram Shripati Chavan, Sarubai Namdev Nigade, Other Right, Nitin Namdev Nigade, Sanjay Namdev Nigade, Sujata Namdev Nigade
			1305 Part	600	Private	Gulab Pandurang Nigade, Bhau Pandurang Nigade, Popat Pandurang Nigade, Janabai Pandurang Nigade,
			1306 Part	1120	Private	Krishnakant Balwant Bhoparshi, Sadashiv Mahadev Vibhute, Mrs Leela Govind Rajput, Arjun Sangen Rajput, Prakash Manohar Rajput, Ratilal Maniklal Gujar, Krishna Kesu Ghadage, Aruna Suresh Gujar, Mehboob Karimbhai Shaikh, Maniklal Gujar, Tukaram Ganpati Kabule, Vasant Shankar Bhadane, Malhari Bhagwan Kamble, Sampatrao Anandrao Jagtap, Balaso Dhondiram Chavan, Vikas Govind Agrawal, Vinod Govind Agrawal, Satyawar Premnath Shinde,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Rohidas Dinkar Mandhare, Ashok Pandurang Nikam, Shubhangi Sanjay Kasurde, Mrs Shashikala Kisan Mohan, Manohar Sakharan Chougule, Ranjana Chandrakant Khopade, Gangaben Vishram Patel, Kantaben Damji Patel, Laxman Baburao Pawar , Navnath Eknath Kabule, Lalita Narayan Gujar, Pratap Hindurao Nikam, Sunita Narayan Chavan Other Right Chandan Narayan Gujar, Prakash Narayan Gujar, Dilip Narayan Gujar, Aruna Suresh Gujar, Dnyandip Cooperative Society
			1307 Part	900	Private	Vasant Vishwanath Mandake, Sharadchandra Vishwanath Mandake, Laxman Rambhau Nigade, Sharad Khederao Parade, Muktabai Raghunath Dibale, Sanjay Bhalchandra Vhajgiwale, Padmavati Mohanlal Lahoti, Laxmikant Mohanlal Rathi, Amir Allabaksh Khan, Shabbir Allabaksh Khan, Mrs Mariyambi Akbar Patel, Mrs. Urmila Vijay Bhujwa, Nirmalkumar Ramvilas Ruiya, Mrs. Prabhavati Shivdas Lahoti, Dattatraya Rangnath Kulkarni
			1318 Part	705	Private	Asha Rohidas Gaikwad, Sarubai Baburao Tambe, Shobha Rajendra Gade, Nalini Arvind Walimbe
			1335 Part	375	Private	Hanmant Haribhau Deshpande
			1336 Part	600	Private	Dattatraya Yashwant Nigade, Mrs. Shakuntala Vitthalrao Sanas, Suvarna Rama Chougule, Nivas Bapu Chougule, Vijay Babasaheb Bhalang, Bhaskar Sadashiv Chavan, Rajendra Dinkar Tapade, Sanjay Lahanu Thorat, Balasaheb Murlidhar Date
			1351 Part	975	Private	Baburao Govind Shirke, Ajay Baburao Shirke
			1352 Part	210	Private	Baburao Govind Shirke, Ajay Baburao Shirke, Other Right, Madhavrao Vyankatesh Shigate
			1353 Part	330	Private	Ajit Bubakhan Nayakwadi
			1354 Part	1020	Private	Baburao Govind Shirke,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Ajay Baburao Shirke, Other Right, Bubakhan Ebradi Nayakwadi, Dilawar Allabaksh
			1356 Part	840	Private	Mahmood Nanubhai Nayakwadi, Baburao Govind Shirke, Ajay Baburao Shirke, Basir Basubhai Nayakwadi, Bismilla Magbul Nayakwadi, Dilawar Magbul Nayakwadi, Nurjahna Baban Sayyad , Shakira Ekbai Shaikh, Nasima Jamal Pansare, Jakira Nazir Inamdar, Hajibhai Pyarali Sanani, Umedbhai Hamidbhai Dodiya, Sudhakar Hanmantrao Boravke, Amirbhai Pyarali Sanani, Other Right, Sattar, Jubbar, Nyajabi, Jamal shaikh & Fatmabi Basubhai Nayakwadi
			1358 Part	390	Private	Narayan Ramchandra Jadhav, Dnyanoba Ramchandra Jadhav, Kundalik Ramchandra Jadhav, Mahadev Ramchandra Jadhav, A. R. Nagraj.
			1337 Part	900	Private	Brown Paper Technology, Ltd.
			1338 Part	1950	Private	Brown Paper Technology, Ltd.
			1339 Part	450	Private	Brown Paper Technology, Ltd.
			1340 Part	450	Private	Hanmant Haribhau Deshpande
			1341 Part	825	Private	Brown Paper Technology, Ltd.
			1342 Part	1875	Private	Latif Aji Khan Nayakwadi, Baburao Govind Shirke
			1349 Part	2250	Private	Baburao Govind Shirke, Ajay Baburao Shirke
			1350 Part	750	Private	Shabbir Abbasbhai Mujawar, Shafik Abbasbhai Mujawar, Riyaj Abbasbhai Mujawar, Other Rights, Niyamatbi Abbasbhai Mujawar, Mrs. Wahida Yusuf Mulani, Shakila Liyakat Shaikh
2	Satara	Kasbe Limb	850/1 part	500	Private	Laxmi Narayan Dev, Meghana Bhaichandra Ghanekar, Bhaichandra Shankar Barve, Pandurang Parshram Barve ,
			851/1 part	300	Private	Laxman Balu Sawant,
			851/2 A part	200	Private	Bhanudas Nivrutti Sawant, Vitthal Ramchandra Sawant, Sopan Ramchandra Sawant, Krushnarao Ramchandra Saigude, Hanmant Ramchandra Sawant, Vitthal Bajirao Sawant, Ashok Bajirao Sawant, Sarjerao Laxman Sawant.
			851/2 B part	200	Private	Vitthal Bajirao Sawant,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Ashok Bajirao Sawant,
			851/3 part	700	Private	Ramchandra Balu Sawant, Bhanudas Bapu Sawant , Hanumant Pandurang Raskar, Ramchandra Pandurang Raskar, Baban Pandurang Raskar, Uttam Pandurang Raskar.
			981/2 part	1300	Private	Ramchandra Mahadev Sawant, Jeetendra Sarjerao Sawant,
			982/1, 982/2 and 982/3	2050	Private	Bhiku Bala Sawant, Anna Bala Sawant, Mahadu Bala Sawant, Bhiku Bala Sawant,
			995/1 and 995/2	7750	Private	Gangaram Bhimaji Pharande, Balawant Baburao Pharande, Babasaheb Baburao Pharande, Shamrao Baburao Pharande, Prakash Sadashiv Pharande, Dattatraya Manikrao Pharande, Leelabai Vishnu Jamdade, Sulochana Baban Nvase, Manorama Vasanttrao Sasane, Other Right Maharashtra State Cooperative Land Development Bank, Pune.
			1003 part	3550	Private	Dwarkanath Yeshwant Kulkarni, Vinayak Raghunath Kulkarni, Laxman Mahadev Kulkarni, Kashinath Sadashiv Kulkarni, Subhash Narayan Kulkarni, Laxman Sadashiv Kulkarni other Rights- Namdev Mahadev Pharande, Dnyaneshwar Pandurang Pharande, Narayan Pandurang Pharande,
			1004/2 part	800	Private	Shamrao Laxman Barkade, Ramchandra Laxman Barkade, Vishnu Laxman Barkade, Vilas Anand Barkade, Dilip Govind Barkade, Namdev Sakharan Barkade, Other Rights. Jagubai Laxman Barkade, Bank of Maharashtra, Limb Branch
			1005/1 part	1350	Private	Amar Shrirang Jadhav, Gulabrao Mukuttrao Jadhav, Maruti Mukuttrao Jadhav, Shekhar Sahebrao Jadhav, Rahul Sahebrao Sawant, Other Right, The Sahyadri Sahakari Bank Limited Branch Satara
			1006/1 part	700	Private	Amar Shrirang Jadhav

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Other Right, The Sahyadri Sahakari Bank Limited Branch Satara
			1006/2 part	450	Private	Krushna Shankar Sawant Janardhan Krushna Sawant , Gulabrao Mukutrao Sawant , Maruti Mukutrao Sawant , Shekhar Sahebrao Sawant , Rahul Sahebrao Sawant ,
			1007/1 part	3000	Private	Shrirang Narayan Mandake. Other Right Abhijeet Dattatraya Mandake,
			1007/2 part	50	Private	Alankar Dattatraya Mandake, Amit Dattatraya Mandake, Lata Dattatraya Mandake, Abhijeet Dattatraya Mandake, Other Right Ganpati Tukaram Barkade, Vithu Piraji Barkade
			1009/1 part	750	Private	Tanaji Baburao Varnikar Dhanaji Baburao Varnikar Vitthal Pandurang Salgude Other Right, Mukutrao Vaman Sawant, Sahebrao Vaman Sawant,
			1009/2 part	4500	Private	Vitthal Shankar Sawant, Krushna Shankar Sawant, Janardhan Krushna Sawant, Gulabrao Mukutrao Sawant, Maruti Mukutrao Sawant, Shekhar Sahebrao Sawant, Rahul Sahebrao Sawant, Pradip Vitthal Sawant , Dipak Vitthal Sawant, Anjana Vitthal Sawant,
			1009/3 part	200	Private	Anusaya Dada Sawant.

[F. No. NHA/13011/7/2003/PI]

ASHOKE JOSHI, Secy.